

अख़बद भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

शुक्रवार 06 जनवरी 2023

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- 50 हजार लोगों को रातों-रात उजाड़ नहीं सकते

हल्लदानी: 4000 घरों पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर

हल्लदानी: हल्लदानी में रेलवे की जमीन से 50 हजार लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं। उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा- 50 हजार लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। वहां करीब 4 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं।

पुष्कर धामी बोले- कोर्ट के आदेश के हिसाब से कार्रवाई करेंगे: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो रेलवे की जमीन है। रेलवे विभाग का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा, हम उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

राज्य सरकार और रेलवे की दलीलें: याचिकाकर्ताओं का जमीन पर दावा उनका अपना है। यह जमीन रेलवे की है। वहां रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं



मांगा है। यह जमीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए जरूरी है। यह राज्य के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि यह उत्तराखंड का दरवाजा है। यह सब कुछ रातों-रात नहीं हुआ है। पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है।

दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां: 50 हजार लोगों को रातों-रात बेचर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ-साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। 12 तरह के लोग हो सकते हैं- एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता। आपको जमीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है,

लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। यह एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है। आपका विचार जमीन पर विकास करना है। किसी को निष्पक्ष रूप से इसमें शामिल होना होगा और प्रक्रिया को छोटा करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुनवाई कर रही बेंच ने फैसला सुनाया, "हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, वहां और अधिक कब्जे पर रोक लेंगे। फिलहाल हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं, हालांकि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रह सकती है। एक महीने बाद 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।"

सुप्रीम कोर्ट की चिंता- किन्हें पुनर्वास चाहिए, पहचान हो

बेंच ने चिंता जताई, "हम जो चीज परेशान कर रही है, वो यह है कि आप उस स्थिति से कैसे निपटेंगे, जब लोगों ने यह जमीन नीलामी में खरीदी हो। रेलवे की जमीन के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए यह पहचान होनी चाहिए कि जमीन पर किन लोगों का अधिकार नहीं है और किन लोगों को पुनर्वास की जरूरत है। यह कहना सही नहीं होगा कि वहां दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्ध सैनिक बलों को तैनात करना होगा।"

पूरा मामला समझते हैं...

दरअसल, हल्लदानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे-धीरे यहां पक्के मकान बन गए और धीरे-धीरे बस्तियां बसती चली गईं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमण करने वालों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा न करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी। लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।

4 हजार से ज्यादा घरों में अधिकतर मुस्लिम: हल्लदानी के बनभूलपुरा में 4 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं। इनमें अधिकतर मुस्लिम हैं। सूत्रों के मुताबिक, आजादी के पहले इस हिस्से में बगीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समाज के लोग काम करते थे। धीरे-धीरे वह यहां बसते गए और रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। हल्लदानी रेलवे स्टेशन के आसपास का यह इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर करता है। इन इलाकों को गम्फूर बस्ती, डोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है।

रेलवे और स्थानीय प्रशासन का क्या कहना है



रेलवे की जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर निर्माण की अनुमति कैसे दी गई? इस पर रेल मंडल के अधिकारी विवेक गुप्ता ने कहा- रेलवे लाइनों के पास अतिक्रमण एक राष्ट्रीय समस्या है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का यह मामला 2013 में अदालत में पहुंचा था। तब याचिका मूल रूप से इलाके के पास एक नदी में अवैध रेत खनन के बारे में आई थी। फैसले से पहले जिलाधिकारी धीरज एस गव्याल ने कहा था- लोग यहां रेलवे की जमीन पर रहते हैं। उन्हें हटाना जाना है। तैयारी चल रही है। हमने अतिरिक्त सुरक्षाबलों की मांग की है। अवैध कब्जा जल्द हटाया जाएगा।

स्थानीय लोगों का कैडल मार्च और धरना: स्थानीय प्रशासन ने रेलवे के साथ मिलकर जमीन का निरीक्षण किया था, जबकि हटाए जा रहे निवासियों ने बेदखली रोकने के लिए कैडल मार्च निकाला और धरना दिया। इलाके की एक

मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने सामूहिक नामाज इज्जामाई दुआ अदा की। मस्जिद उमर के इमाम मौलाना मुक़ीम कासमी ने बताया कि लोगों ने सामूहिक रूप से समाधान के लिए प्रार्थना की। कुछ प्रदर्शनकारी रोते हुए भी दिखे थे। प्रदर्शनकारियों में से एक 70 वर्षीय खैरुनिसा ने 'कहा था- मैं यहां हूँ आज या कल से नहीं हूँ। मुझे बने बच्चों और पोते-पोतियों की चिंता है। क्या इस जमीन पर घर, स्कूल और अस्पताल बनने के बाद ही रेलवे जागा है? प्रदर्शन की तुलना दिल्ली के शाहीन बाग से: कब्जे हटाए जाने के आदेश के खिलाफ यहां बसे लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। धरने में महिलाएं और बच्चे बैठे। इसलिए इस आंदोलन की तुलना दिल्ली के शाहीन बाग वाले प्रदर्शन से शुरू हो गई। शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं ने सीएफ के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

300 कुत्तों को पालने वाली बुजुर्ग अभी घर में रहेंगी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक एमसीडी को कार्रवाई करने से रोक दिया है। दिल्ली नगर निगम की ओर से लगभग 300 आवासीय कुत्तों की देखभाल करने वाली 80 साल की बुजुर्ग महिला की झोपड़ी गिराने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी होने तक एमसीडी को कार्रवाई करने से रोक दिया है। एमसीडी ने सोमवार को एक बुजुर्ग महिला प्रतिमा देवी की झुग्गी और दुकान तोड़ दी थी। महिला उस झुग्गी में 300 आवासीय कुत्तों को पालती थी। प्रतिमा देवी ने आरोप भी लगाया था कि एमसीडी के लोगों ने उनका सामान भी छीन लिया था।



यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करते राहुल गांधी।

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए केन्द्र ने 12,882 करोड़ की दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक

● कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वहां एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें डोनियर और राज्यों के कृषि अधिकारी शामिल किए गए हैं

नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि (साल 2022-23 से 2025-26 तक) के लिए 12882.2 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनियर) की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 12882 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी



किशन रेड्डी ने गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि 12882 करोड़ रुपये विभिन्न मंत्रालयों की परियोजनाओं

परियोजनाओं पर काम चल रहा है। स्वीकृत इस फंड से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वहां एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें डोनियर और राज्यों के कृषि अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसी तरह पर्यटन के विकास के लिए भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ सालों में पूर्वोत्तर राज्यों में चार लाख करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर काम हुआ है। इन राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहां 17 एयरपोर्ट बनाए जा चुके हैं। पहले यहां नौ एयरपोर्ट हुआ करते थे। इन राज्यों में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य आने वाले समय में निवेश के लिए बेहतर स्थान होने वाला है।

उत्तराखंड के जोशीमठ में धंस रही जमीन

देहरादून: उत्तराखंड के चमौली जिले में जमीन और पहाड़ धंस रहे हैं। जोशीमठ में भी इसका असर दिख रहा है। यहां 561 घरों में दरारें आ गई हैं। अब तक 66 परिवार पलायन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि इसकी जांच करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम आज जोशीमठ जाएगी। धामी ने लोगों के राहत और बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जमीन धंसने के बाद जोशीमठ में एशिया का सबसे लंबा रोपवे बंद करने का फैसला लिया गया है।



जोशीमठ भू-धंसाने के मामले की निगरानी ग्राइड मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी की जा रही है। क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के एक टीम पहुंचेगी। जोशीमठ बचाओ

संघर्ष समिति ने बाजार बंद करने का ऐलान किया है। लोग सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं और प्रशासन के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। भूवैज्ञानिक, इंजीनियर और

अफसरों की 5 सदस्यीय टीम ने पहले दरारों की जांच कर चुकी है। सूत्रों की मानें तो इस पैनाल ने पाया कि जोशीमठ के कई हिस्से मानव निर्मित और प्राकृतिक कारणों से ढूब रहे हैं। घरों में दरारें आने के बाद जोशीमठ से अब तक अब तक 66 परिवार पलायन कर चुके हैं। घरों के अलावा कई जगह सड़कों में भी दरारें सामने आई हैं। कई जगह पहाड़ भी धंस रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की कई तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं और जोशीमठ को बचाने की मांग की जा रही है। जोशीमठ के मुख्य डॉक्टर में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है।

तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन की जेल अधिकारियों को धमकी



बाहर आकर सबको देख लूंगा, अफसरों ने डीजी जेल से शिकायत की


नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्टर के मुताबिक, अधिकारियों ने डीजी जेल से मंत्री के खिलाफ शिकायत की है। कहा है कि जैन उनके साथ जेल में जेल में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें जेल से बाहर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि 8 दिसंबर को जेल में नियमों का उल्लंघन करने पर जैन को कारण बताओ नोटिस देने गए तो उन्होंने कहा- 'मैं सब जानता हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं सभी को देख लूंगा। मैं जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगूंगा और बाहर निकलकर इन अधिकारियों को देख लूंगा।' शिकायत में यह भी कहा गया है कि जैन का कहना है कि वह सारा मैटर राजनीतिक है। जिन अधिकारियों ने एलजी को शिकायत दी है, उनमें जेल नंबर 7 के अधीक्षक, जेल

सुपरिन्टेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट, एडीजी जेल और लॉ ऑफिसर भी शामिल हैं। फिलहाल, आप या दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेल से सत्येंद्र जैन के वीडियो हो चुके हैं वायरल: नवंबर में सत्येंद्र जैन के कुछ फुटेज सामने आए थे, जिनमें उनको सेल में सुविधाएं लेते देखा गया था। फुटेज में कैदी सेल में उनकी मालिश करते दिखे थे। उनकी सेल में कुर्सी, टेबल और दरी भी नजर आई थी, जो जेल के नियम के खिलाफ है। इस पर बवाल हुआ था। भाजपा ने जैन को मंत्री पद हटाने की मांग की थी। आप ने कहा था फिजियोथेरेपी दी जा रही: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिंसोदिया इस वीडियो पर सत्येंद्र जैन के पक्ष में सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं।

36 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा हैशटैग 'योगीनाॅमिक्स', ट्विटर पर टॉप ट्रेड हुआ 'योगीनाॅमिक्स'

योगी के अर्थमंत्र का कायल हुआ सोशल मीडिया

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुम्बई से डोमेस्टिक रोड शो का शुभारंभ कर दिया है। अगले 22 दिन में देश के नौ बड़े शहरों में टीम योगी रोड शो के जरिए प्रदेश में 17 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के लिए रोड शो करेगी। मुख्यमंत्री योगी का यह प्रयास सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मुख्यमंत्री योग गुरुवार को जिस वक्त मुम्बई में बैंकर्स और निवेशकों से मिलकर उन्हें प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, उस वक्त सोशल मीडिया यूजर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अर्थिक नीतियों की हैशटैग योगीनाॅमिक्स के जरिए सराहना करते दिखे। ट्विटर पर




हैशटैग योगीनाॅमिक्स और 'योगीजी' घंटों टॉप ट्रेड में बने रहे। इस दौरान यूजर्स मुम्बई में आयोजित रोड शो के इवेंट्स की तस्वीरें और वीडियो ट्वीट करके योगी के प्रयासों की

सराहना करते दिखे। ट्विटर पर करीब 36.27 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा। तकरीबन 14 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इस हैशटैग के जरिए योगी सरकार पर विश्वास जताते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। इसके अलावा लगभग 23.5 हजार यूजर्स ने लाइक, रिप्लाई और रीट्वीट के जरिए सीएम योगी आर्थिक नीतियों को प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी बताया। यूजर्स के अनुसार जिस तरह से योगी सरकार निवेशकों से संपर्क कर रही है वो काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे का माहौल बना है और ईंज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस के मामले में प्रदेश की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है।

नई दिल्ली: सरकार ने निर्णय लिया है कि 75 साल से ऊपर के उन वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करना होगा, जिनकी आय का साधन सिर्फ पेंशन या फिर् बैंक से मिलने वाला ब्याज है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी ट्वीट के मुताबिक 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को अब इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करना होगा, जिनके

तहत वरिष्ठ नागरिकों को यह फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट में इसका ऐलान किया था।



आय का साधन सिर्फ पेंशन या फिर् बैंक से मिलने वाला ब्याज है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न-1961 में एक नई धारा 194द को जोड़ा गया है, जिसके

खबर संक्षेप

गौशालाओं में बीमारी से तड़प रहे मवेशी, जिम्मेदार मौन

दो गौशालाओं में दर्जन भर बीमार पड़े मवेशी, नहीं हो रहा उपचार

अखंड भारत संदेश

रव्यो। प्रदेश की योगी सरकार भले ही गांवों में गौवंश आश्रय स्थल खुलवा कर भले ही आवारा पशुओं के संरक्षण व उनको देखभाल के कड़े निर्देश दिए हों, किंतु जिम्मेदार अधिकारी उदासीन देखी जा रही है। सरकार द्वारा भले ही प्रत्येक महीने लाखों रुपए गौशालाओं के नाम पर जहां व्यय किया जा रहा है। वहीं वृहत्स्थितियों को जब हकीकत की पड़ताल की गई तो पता चला कि गौवंश आश्रय स्थलों में रह रहे मवेशी सिर्फ पुआल की कुट्टी के सहारे इस भीषण ठंड में तड़प रहे हैं। कपुरी बढैया गांव में संचालित हो रहे बाबा गोरक्षनाथ अस्थाई गौवंश आश्रम केंद्र का निरीक्षण किया गया जहां गौपालक रामाश्रय व सतोप ने बताया कि उक्त गौआश्रम केंद्र में कुल 220 मवेशी हैं। मवेशियों की चरही में पुआल की सूखी कुट्टी डाली गई थी। जब यह पूछा गया कि पुआल कुट्टी ही दी जाती है अथवा भूसा भी तो बताया कि 2 दिन भूसा और 2 दिन पुआल की कुट्टी इस क्रम से चारा खिलाया जाता है। चुनौती चोकर की बात की गई तो गौवंश आश्रम केंद्र के गोदान में महज 25 किलो की एक बोरी पशु आहार व एक बोरी नमक के अलावा

कुछ भी नहीं मिला। पांच मवेशी इस गौवंश आश्रम केंद्र में बीमार तड़पते पाए गए। सुचारू रूप से ठंड हवा को रोकने के लिए सही ढंग से पन्नी भी नहीं लगाया गया है इसी प्रकार स्थायी गौवंश आश्रम स्थल पसना का भी जायजा लिया गया जहां की हालत बंद से बदतर पाई गई। यहां की गौशाला में कुल 7 मवेशी गंभीर बीमारी की हालत में पाए गए। दो जिंदगी और मौत से जुड़ रहे थे एक मवेशी की हालत तो इतना दयनीय थी कि पक्षी उसकी आंख तक निकाल लिए हैं, दूसरा दूसरा मवेशी चरही में गिरा पड़ा रहा। जो अपने से उठ नहीं पा रहा है। कपुरी बढैया में जहां कुल 4 गौपालक रखे गए हैं, वहीं पसना की गौशाला में 5 गौपालक हैं। पसना गौशाला के चरही में व्यापक गंदगी देखी गई। मवेशी चरही में ही खड़े होकर गोबर युक्त पुआल की बची खुची सूखी कुट्टी खा रहे थे। चरही को देखने से प्रतीत हो रहा था कि जैसे कभी साफ-सफाई न की जाती हो। पसना में कुल 5 गौपालकों में तीन क्रमशः रामबली पुत्र शोभन, राम कैलाश पुत्र चंद्रभान व नानक पुत्र रामअभार मौजूद मिले। जबकि दो गौपालकों को हरा चारा काटने की बात कही गई। गौपालक राम कैलाश के द्वारा बताया गया कि ठंड से बीते 2 दिन में 4 पशुओं की मौत हो

चुकी है। जब यह पूछा गया कि मृत हुए गौवंश को क्या किया जाता है तो उन्होंने बताया कि बगल की पहाड़ी पर फेंक दिया जाता है। गौशाला में मृत मवेशियों को गट्टे का इंतजाम नहीं किया गया है। बीमार पड़े मवेशियों के उपचार के बारे में जब पूछा गया तो गौपालक राम कैलाश ने बताया कि सूचना देने के बाद भी चिकित्सक नहीं आते हैं। कल ग्राम पंचायत के सचिव आए थे और देख कर चले गए थे। गौशाला में अब्यवस्थाओं को लेकर बीडीओ मुकेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह में पसना गौशाला का निरीक्षण किया था और गौपालकों एवं ग्राम प्रधान को पशुओं को ठंड से बचाने एवं समय-समय पर चारा पानी देने हेतु निर्देशित किया था अगर लापरवाही है तो इसकी जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीमार पशुओं के उपचार के बावजूद जब पशु चिकित्साधिकारी डॉ. साहिलकराम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पसना में चार व कपुरी बढैया के गौशाला में एक मवेशी बीमार पड़े हैं जिनका उपचार किया जा चुका है। जबकि पसना में रहे गौपालकों के द्वारा बताया गया कि 3 दिन से बीमार पशुओं के उपचार हेतु डॉक्टर को सूचना दी जा रही है किंतु अभी तक वे गौशाला में नहीं आए।



कपुरी गौशाला में पुआल की सूखी कुट्टी खाते गौवंश



पसना में बीमार पड़ी गौवंश की पक्षियों द्वारा निकाली गई आंख



पसना गौशाला के चरही में बीमार पड़ा पशु

पटना गौशाला के चरही में व्यापक गंदगी का अंसार

दो बाइकों में आमने-सामने हुई टक्कर में एक की मौत

अखंड भारत संदेश

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की सड़क पर गिरकर हुई मौत

अखंड भारत संदेश

कोरांव मांडा मार्ग के रामपुर भखार गांव में हुआ हादसा

करछना। मोबाइल शॉप की दुकान संचालक युवक बुधवार को अपने घर से बाजार करछना सामान लेने गया था की नहर कोठी करछना के पास सामने से आ रही

वाइक में उसकी वाइक आमने सामने भिड़ंत हो गई सर में अधिक चोट लगने के कारण मोबाइल शॉप संचालक सुरेश प्रजापति 35 वर्ष पुत्र महेंद्र प्रजापति निवासी रेपुरा भगनपुर थाना करछना की इलाज के दौरान मौत हो गई घटना के बाद करछना पुलिस मीके पर पहुंचकर अस्पताल भिजवाया उसकी हालत गंभीर देख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना के चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया जहां रात उसकी मौत हो गई बताया जाता है कि हेलमेट न पहनने के कारण सर में अधिक चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई मृतक सुरेश प्रजापति की पत्नी सीमा के एक बेटा और तीन बेटियां थी सबसे बड़ा बेटा रोहन और तीन बेटियां हैं घटना की

रव्यो। क्षेत्र के रामपुर भखार गांव में तेज रफ्तार अनियंत्रित अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पर गिरकर बाइक सवार की मौत पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कमल नारायण तिवारी पुत्र सुखदेव तिवारी (56) निवासी कुशालपुर थाना मांडा अपने गांव से कोरांव थाना क्षेत्र के दोहथा मोड़ पर स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक से डीजल भराने आ रहे थे कि अभी वे रामपुर भखार गांव के पास ही पहुंचे थे कि अज्ञात वाहन की टक्कर से वे सड़क पर ही गिर गए और सर में गंभीर चोट आने के कारण मौत हो गई। सूचना पाकर रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जहां से कमल नारायण तिवारी को सीएचसी कोरांव ले आया गया, जहां

जानकारी होने पर परिजनों में कोहमम मच गया परिजनों के मुताबिक मृतक के जेब से 100000



सीएचसी कोरांव में मृतक के रोते बिलखते परिजन

चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

व मोबाइल था जो किसी ने निकाल दिया करछना पुलिस का कहना है कि घायल अवस्था में उसे

अस्पताल भिजवा दिया गया था मोबाइल और पैसे की मुझे जानकारी नहीं है।

शीतलहर से रजाई में भी छूट रही कंपनी, जनजीवन अस्त-व्यस्त



अखंड भारत संदेश

शंकरगढ़। पौष माह के खत्म होते-होते सर्दी पूरे उपफान पर आ गई है। आग के सामने बैठे हों या फिर रजाई के अंदर, ठंड हावी नजर आई। गुरुवार को पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम पारा भी 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापान्तर कम होने की वजह से दिन में भी कंपकंपी छूट रही थी। यमुना नगर के विभिन्न बाजारों में दोपहर होने तक सन्नाटा पसर रहा। रात में भी बाइक, स्कूटी और सवारी ढोने वालों से व्यस्त रहने वाली सड़कें गुरुवार को दिन में भी सन्नाटे में दिखीं। जगह-जगह लोग अलाव से हाथ संकेते नजर आए। बारा तहराल क्षेत्र में भी सर्दी से लोगों का बुरा हाल है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पशु-पक्षियों की है। आवारा टहलने वाले मवेशियों का समूह इधर-उधर टिकाने की तलाश में कांपता नजर आया। शंकरगढ़, जारी, जसरा और कौंधिया क्षेत्र में भी अलाव जलवाप जाने की मांग तेज होने लगी है। लोगों ने वाहन स्टैंड समेत अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाने की मांग की है। गुरुवार की सुबह कहीं-कहीं हल्के तो कहीं घने कोहर के साथ हुई। ओस की बूंदें पूर्वाह्न बजे तक गिरती रहीं। दोपहर तक मौसम ऐसे ही बना रहा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जगह-जगह जलवाप जलने नजर आए। मौसम विज्ञान प्रो. ए.आर. सिद्धीकी ने बताया कि अभी पारा और गिरगा। फिलहाल, माघ मेला शुरू होने के ठीक पहले ठंड में इजाफा होने से जगह-

तिरुन वाली ठंड से हर कोई बेहाल लोग दिनभर घरों में रहे कैद

नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अलाव की लकड़ी चोरी हो जा रही है

मऊआइमा। कई दिनों से

तिरुन वाली ठंड से हर कोई बेहाल हो गया है। पशु पक्षियों और मानव का बुरा हाल है। ठंड के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा गया। कई दिनों पड़ रही तिरुन वाली ठंड से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हाल यह है कि पशु पक्षियों एवं इंसानों का बुरा हाल है। हालांकि नगर पंचायत मऊआइमा में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है परन्तु शाम को बची हुई लकड़ियों को कतिपय लोग चोरी कर ले जा रहे हैं। जिससे नगर पंचायत को दूसरे दिन फिर अलाव की लकड़ी मिरानी पडती है। गांव में न अलाव न ही कम्बल वितरण का कार्य शुरू हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब ठंड कम हो जाती तो तेज प्रशासन कम्बल वितरण का काम शुरू करता है। गुरुवार को लोगों ने बताया कि आज सबसे ज्यादा तिरुन भरी ठंड है। अधिकांश लोग घरों में कैद रहे। इस हाड कपाने वाली ठंड में सबसे ज्यादा परेशान गरीब रोजमर्रा कमाने खाने की दशा है न पहनने के लिए स्वीटर है रात गुजारने के लिए गर्म लिहाफ है। ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं को बचाने के लिए हर संभव उपाय करने में लगे हुए हैं।

दिन भर रही ठंड शाम होते बढ़ गई गलन जनजीवन अस्त व्यस्त

करछना। गुरुवार का दिन

इस वर्ष का सबसे ठंडा दिन महसूस हुआ जिसके चलते आवागमन सड़कें खाली दिखीं वहीं इस ठंड के मौसम में सरकारी महकमा पूरी तरह फेल दिखा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव नहीं दिखे जिससे राहगीरों में ठंड एवं गलन से बचाव के लिए कोई जरिया नहीं रहा ठंड के कारण बाजारों में उलेन गर्म कपड़े जूता मोजा की दुकानों पर मफलर टोपी जैकेट स्वेटर आदि गर्म कपड़े की खरीदारी बढ़ गई है ज्यादातर जन गरीब परिवारों के लिए समस्या है जहां जाड़े के मौसम में गरीबों को सरकारी कंबल आदि का वितरण किया जाता रहा है लेकिन वही अभी तहसील प्रशासन की ओर से गरीब वार लाभार्थियों को इस जाड़े के मौसम में कंबल का वितरण तक नहीं किया गया और ना ही तहसील प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों चौराहों बाजारों में कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है।



नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अलाव की लकड़ी चोरी हो जा रही है

मऊआइमा। कई दिनों से



नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अलाव की लकड़ी चोरी हो जा रही है

तिरुन वाली ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव व अखबार का सहारा



सहस्रों। तिरुन वाली ठंड से गौसम का ऐसा मिजाज बदला कि लोगों ने अलाव तथा अखबार के सहारे ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। नव वर्ष प्रारम्भ होते ही आसमान में कोहरे और बादल से गौसम का मिजाज बदल गया। नए साल के दूसरे दिन भी पूरे दिन धूप न निकलने के कारण लोग ठंड से तिरुन रहे। अगले दिन भी धूप न निकलने के कारण लोग घरों में दुबके रहे। इसके अलावा सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम रही। सहस्रों बाजार सहित आसपास के बाजारों में दुकानदारों ने दुकान खोलकर आग के सहारे ग्राहक का इंतजार करते रहे। क्षेत्र के आसपास की चाय एवं मिठाइयों की दुकान पर लोग चाय की चुस्की तथा अलाव एवं न्यून पेपर के सहारे ठंड से बचाव करने में लगे हैं। लोगों का कहना है कि नया साल आते ही सर्द मौसम ने अपना ऐसा मिजाज बदला कि लोग तिरुन से घर में चाय की चुस्कियां तथा आग के सहारे परिवार समेत दुबके हुए हैं। भीषण ठंड के चलते लोगों की सड़कों पर आवाजाही कम रही। लोग घरों में आग व अखबार एवं चाय की चुस्कियों के साथ धूप का इंतजार कर रहे हैं। परन्तु इस कड़ाके की ठंड में शासन प्रशासन द्वारा अभी तक चौराहों व मोहल्लों में अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है।

प्रतापपुर क्षेत्र के गांवों में अलाव न जलने से ग्रामीणों में आक्रोश

प्रतापपुर। क्षेत्र में इन दिनों हाड़ कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है सूरज नहीं निकल रहा है प्रतापपुर ब्लाक क्षेत्र में 83 गांव हैं कुछ गांव को छोड़कर अलाव कहां नहीं जल रहा है। प्रधान गण, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी लोग अलाव नहीं जलवा रहे हैं। समाजसेवी बाबा तिवारी एवं ग्रामीणों का कहना है कि यदि चुनाव का समय होता तो तमाम लोग अलाव जलवाते कंबल वितरण करवाते लेकिन इस समय कोई नहीं दिख रहा। इधर ही ठंड के कहर को देखते हुए प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों एवं बाजारों तथा राहगीरों के लिए सार्वजनिक स्थानों एवं चौक चौराहों पर अलाव जलवाना चाहिए। क्षेत्र में ठंड काफी बढ़ गई है जिससे स्थानीय लोगों एवं राहगीरों को कपकपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

प्रधान जंघई ने जलवाया अलाव, लोगों को दिया ठंड से राहत

जंघई। प्रधान जंघई फूलवती देवी द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाकर लोगों को ठंड से राहत दिया गया। इस समय पूरा क्षेत्र कड़ाके की ठंड के प्रकोप को झेल रहा है जिसके कारण आम जनमानस का जन जीवन प्रभावित हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पशु पक्षी सब ठंड की चोट में हैं हर कोई ठंडी से बचने का प्रयास कर रहा है जंघई में अलाव जलने पर लोगों ने राहत की सांस लिया बाजार के निवासियों एवं राहगीरों द्वारा जलते अलाव से हाथ धरे संकेतक गमी महसूस किया।

बढती ठण्ड से जनजीवन अस्त व्यस्त

नैनी। बढती ठण्ड का प्रभाव पडने लगा है आज प्रयागराज में पारा सामान्य से अधिक नीचे आ जाने के कारण लोगों को तेज ठण्ड का आभास हुआ नैनी में भी तेज ठण्ड के कारण जगह जगह अलाव जलते दिखे जहां दुकानदारों ने भी अलाव के पास बैठकर भीषण ठण्ड से अपना बचाव करते रहे व्यापारी शरद जयसमय और सोनू विश्वकर्मा सनी गुधा सोनू चौरसिया ने बताया कि नगर निगम के द्वारा अलाव के लिये की गई लकड़ी की व्यवस्था अपूर्ण है वहीं तेज ठण्ड के कारण भीड़ वाले बाजार में ग्राहक कम दिखे मौसम विभाग की मानें तो अभी दो दिनों तक तेज शीत लहर का प्रकोप बना रहेगा।

न्यूज झरोखा

कबड्डी प्रतियोगिता में कामता सिंह पीजी कॉलेज टीम रही चैंपियन

सहस्रों। जनवादी महिला क्रिकेट कबड्डी प्रतियोगिता में कामता सिंह गल्स पीजी कॉलेज पटेल नगर की टीम ने विजय हासिल करते हुए चैंपियन रही। शिवानी हीरो द्वारा आयोजित जनवादी कबड्डी महिला वर्ग की प्रतियोगिता गुलालपुर के मैदान में आयोजित किया गया। जिसमें कामता सिंह गल्स पीजी कॉलेज पटेल नगर की टीम सफलता हासिल करते हुए विजई रही। दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में आसपास की 27 टीमों ने प्रतिभाग किया। कड़े संघर्ष के बाद सेमी फाइनल मैच कामता सिंह गल्स पीजी कॉलेज एवं एस्सी मल्टी स्पोर्शलिस्ट हॉस्पिटल थरवई तथा जेके स्कूल एंड कॉलेज गुलालपुर के बीच खेला गया। जिसमें फाइनल मैच कामता सिंह गल्स पीजी कॉलेज एवं एस्सी मल्टी स्पोर्शलिस्ट हॉस्पिटल थरवई के बीच खेला गया। कड़े संघर्ष के बाद कामता सिंह गल्स पीजी कॉलेज पटेल नगर की टीम ने ट्राफी पर अपना कब्जा कर लिया। इस अवसर पर शिवानी हीरो के डायरेक्टर विनायक सिंह ने प्रथम विजेता टीम कामता सिंह गल्स पीजी कॉलेज पटेल नगर को 15000 रुपए का चेक व ट्राफी प्रदान किया। इस प्रकार द्वितीय विजेता एस्सी मल्टी स्पोर्शलिस्ट हॉस्पिटल को 11000 रुपए का चेक व ट्राफी प्रदान किया। प्रथम स्थान पर रही जेके स्कूल एंड कॉलेज गुलालपुर को 5100 रुपये व ट्राफी प्रदान करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम के आयोजक संवेश ने कबड्डी के सभी खिलाड़ियों, अतिथियों को धन्यवाद देते हुए सफल आयोजन के लिए सहयोगियों के प्रति आभार ज्ञापित किया।

अवैध खनन से शीघ्र ही मुक्त होगा करछना : डॉ. पांडेय

करछना। गंगा और टोंस नदी से घिरे करछना क्षेत्र में कई घाटों पर बालू के अवैध खनन पर शीघ्र ही लगाम लगेगी और अवैध खनन का धंधा शीघ्र ही बंद होगा। एतया सरकार के समय से ही उच्च राजनीतिक संरक्षण में बालू माफियाओं द्वारा यह परंपरा फलती फूलती रही। गंगा के किनारे डीहा, रवनिका, कबरा और टोंस में भगनपुर, बवेडा, कुलमई आदि गांवों के समीप घाटों पर अवैध खनन का कार्य निरंतर जारी है जिसपर प्रशासन मुस्दई है और शीघ्र ही लगाम लगेगी। यह बातें जमुना नगर जगति मिशन के संयोजक डॉ. भवत पांडेय ने रामपुर में हुई बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर घाटों पर बसे गरीब मछुआरों की रोजी रोटी का धंधा बालू से जुड़ा रहा वहीं बालू माफियाओं के चलते उन्हें दरकिनार कर बद्रूप अवैध खनन जारी रहा जहां केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार जौरे वारंलेंस पर चल रही है वहीं इस्की शिकायत पहुंचने पर गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को भी निगरानी के लिए मुस्दई कर दिया गया है। बालू और मिट्टी के अवैध खनन और ढुलाई के चलते क्षेत्र की कई सड़कें टूट गई हैं और लोगों को आवागमन में भी भारी दिक्कत हो रही है इसे लेकर बीते दिनों खनन अधिकारी और उपजिलाधिकारी से धंधा बंद कराने की भी बात कही गई थी जिस पर सभी सक्षम अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी शुरू कर दी है और साथ ही साथ ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। मिशन के लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले दिनों गंगा घाट से अवैध तरीके से निकाले जा रहे खनन के माल पर भी लोगों की निगाह बनी रही किंतु प्रशासन शायद अब इस मामले पर गंभीर हो चुका है। बिटक के दौरान कई क्षेत्रीय प्रवृद्ध जन और समाजसेवी मौजूद रहे।

गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म : डॉ. गुलाम मुस्तफा

ठंड से राहत केलिए सैकड़ों मजदूरों को वितरित किया गया कम्बल

करछना। समाज सेवा समिति रामपुर करछना द्वारा बाटे गए कंबल आज रामपुर जीवनदीप हॉस्पिटल पर सामं समाज सेवा समिति के तत्वाधान में डॉक्टर गुलाम मुस्तफा उर्फ लाल मियां के अध्यक्षता में गरीबों मजदूरों को बांटे गए कंबल इस मौके पर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा ने कहा के लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और उन्होंने कहा आगे भी लोगों की सेवा करते रहे ग संगम समाज सेवा समिति पिछले 15 वर्षों से जिला प्रयागराज में सक्रियता से लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रही है कोरोना काल में भी संस्था ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया था संस्था शिक्षा स्वास्थ्य समाज की सेवा आपसी भाईचारा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए करने के लिए कार्य कर रही है इस मौके पर शहजाद उल हक ने कहा सारी संस्थाओं को आगे आकर कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल अलाव जलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए इस मौके पर मोहम्मद वाफिस, डॉ. अफजल, शाहबाज हक, मोहम्मद अकरम, रहीम, नरेंद्र एडवोकेट बाबा यादव, अमित यादव, कल्लू मिश्रा, अनिल यादव, बाबा यादव, बुजेश यादव, फेरसल, सुकर फातिमा, जसवंत यादव, अमरीन, खुशबू, आदि लोग मौजूद रहे।

सच्चा बाबा नगर में एक सप्ताह से द्यूबवेल खराब

नैनी। ग्राम प्रधान अरल प्रतिनिधि प्रदीप महारा द्वारा जल निगम के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी पंप को ठीक अभी तक नहीं कराया गया पंप हाउस के कर्मचारी आशीष कुमार पांडे ने बताया कि यह पंप अक्सर खराब हो जाता है माघ मेला भी करीब है इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी गई। वर्तमान में माघ मेला करीब होने के कारण अधिकतर मठ मंदिरों में एवं क्षेत्रीय लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान ने करछना के विधायक पीपूष रंजन निषाद कोई समस्या से अवगत करा कर समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है उन्होंने जल निगम के उच्चाधिकारियों से तत्काल अरल के सच्चा बाबा नगर के पंपको ठीक कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है।

खबर संक्षेप

कालका एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी

प्रयागराज। कालका (नेताजी) एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला के साथ नशे में धुत युवक ने छेड़खानी की। जब अन्य यात्रियों ने उसे रोका वह मारपीट करने पर अमादा हो गया। आरोपी युवक ने जमकर हंगामा मचाया। फतेहपुर स्टेशन आने पर महिला ने जीआरपी से शिकायत की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटनास्थल के आधार पर एफआईआर प्रयागराज जीआरपी को तीन जनवरी को भेजी गई। गजीपुर की रहने वाली एक महिला 31 दिसंबर को कालका-हावड़ा (नेताजी एक्सप्रेस) से यात्रा कर रही थीं। प्रयागराज जंक्शन पर एस 6 कोच में नशे में धुत एक युवक घुसा। वह महिला की सीट पर जबरन बैठ गया। ट्रेन चली तो वह महिला से बात करने की कोशिश करने लगा। जब महिला ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो उसने हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर महिला से गाली गलौज की। आस पास बैठे यात्रियों ने जब युवक का विरोध किया तो वह लड़ने पर अमादा हो गया। नशे में धुत युवक ने काफी हंगामा मचाया। तब तक ट्रेन फतेहपुर स्टेशन पहुंच गई थी। महिला ने जीआरपी थाने जाकर तहरीर दी। अन्य यात्रियों ने युवक के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी निखिल दुबे निवासी भरथना इटावा को गिरफ्तार कर लिया।

पौष पूर्णिमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

संगम क्षेत्र में तैनात किए गए एटीएस कमांडो

पहले स्नान पर्व की पूर्व संध्या पर पीएस व आरएफ को एडीजी ने किया ब्रीफ

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। माघमेला में पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संगम पर एटीएस के कमांडो को तैनात किया गया है। इसके अलावा आरएफ और पीएस भी तैनात रहेंगे। बृहस्पतिवार को एडीजी ने फोर्स को ब्रीफ किया। इसके बाद फोर्स तैनाती स्थल पर रवाना हो गई। ड्रोन और आईट्रिपलसी के कैमरों से हर वक निगरानी होती रहेगी। रिजर्व पुलिस लाइन माघमेला के मानसरोवर सभागार में आज एडीजी भानु भास्कर ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ति में श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार न किया जाय। पुलिस वाले यह सुनिश्चित कराए कि श्रद्धालु सिर्फ स्नान घाटों पर ही स्नान करें क्योंकि कई जगह खतरनाक कटान है।



संदिग्ध व्यक्तियों और सामानों की चेकिंग की जाय मीटिंग में कमिश्नर रमित शर्मा, डीआईजी चंद्रप्रकाश, एसएसपी मेला डा. राजीव नारायण प्रयागराज और एसपी मेला आदित्य शुक्ला समेत तमाम अधिकारी और

कर्मचारी मौजूद रहे। एसएसपी मेला डा. राजीव ने बताया कि फोर्स को बृहस्पतिवार रात आठ बजे से ही तैनात कर दिया गया है। संगम पर एटीएस और एसटीएफ के कमांडो तैनात रहेंगे। इस बार एसडीआरएफ


के साथ एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। बीडीडीएस (बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड) टीमें एक्टिव हैं। कुल पांच हजार की फोर्स तैनात रहेगी। ड्रोन से मेले की लगातार निगरानी होती रहेगी।

अधूरी तैयारी के बीच आज से शुरू हो रहा कल्पवास

झूंसी। गंगा जमुना की गोद में लगे माघ मेले में आज से अधूरी तैयारी के बीच कल्पवास शुरू हो जायेगा। कल्पवासी अपने शिविरों में पहुंच गए पर पानी बिजली के लिए परेशान हैं। माघ मेले में सुविधाओं का प्रशासनिक दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। बहुत से स्थानों पर बिजली पानी नहीं पहुंच पाई है। सेक्टर चार के गाटा संख्या 3 में लगे तीर्थपुरोहित सन्तोष पांडा के शिविर से सैकड़ों श्रद्धालु कल्पवास के लिए पहुंच गए हैं पर अभी तक यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तीन दिनों से कल्पवास के लिए माघ मेले में आये श्रद्धालु दूसरे शिवर से पीने व भोजन बनाने के लिए पानी ला रहे हैं। जल निगम से शिकायत भी की गई पर अभी तक शिविर ने नल नहीं लग पाया। जिसकी वजह से कल्पवासियों में आक्रोश है।

देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में श्रम विभाग की भी रहेगी पैनी नजर

प्रयागराज। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले के सफल आयोजन को लेकर के हर विभाग सतर्क है। ऐसे में श्रम विभाग ने बाल मजदूरी को लेकर के कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज मंडल के उप श्रमअयुक्त राजेश मिश्रा ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि माघ मेले में बाल मजदूरी रोकना एक संकल्प है जिसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी बच्चे को बाल मजदूरी करवाने के कार्य में देवी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष बाल मजदूरी को लेकर प्रयागराज में 148 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि बच्चों का रेस्क्यू भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की दुबकी लगाने के लिए आते हैं साथ ही मेला क्षेत्र में सैकड़ों दुकानों भी संचालित की जाती हैं इसी को ध्यान में रखते हुए बाल मजदूरी ना कराने को लेकर के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है 43 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की दुबकी लगाएंगे और हजारों की संख्या में लोग संगम की रती पर कल्पवास करेंगे, इस दौरान जगह जगह दुकानें भी लगाई जा रही हैं। कई बार देखा गया है कि दुकानों में छोटे-छोटे बच्चे मजदूरी करते हुए नजर आते हैं शासन की तरफ से कड़े निर्देश दिया गया है की बाल मजदूरी को लेकर कोई कोटाही न बरती जाये। गौरतलब है कि 2025 में लगने वाले कुंभ मेले से पहले 2023 और 24 का माघ मेला कुंभ का रिहसल है। ऐसे में हर विभाग कुंभ जैसी सुविधाओं को लेकर के अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। उप श्रम अयुक्त राजेश मिश्रा ने यह भी बताया कि विभिन्न जिलों से आए मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। जहां पर उन मजदूरों के बच्चों को शिक्षा का भी लाभ मिलता रहेगा। आपको बता दें संघ की रती पर 6 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक लगने वाले माघ मेले के सफल आयोजन को लेकर के योगी सरकार द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।



महान आध्यात्मिक विभूति श्री परमहंस योगानंद जी का मनाया गया जन्मदिवस

परमहंस योगानन्द जी के आविर्भाव के अवसर पर क्रियायोग गुरु स्वामी श्री योगी सत्यम ने सत्य-अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश

अखंड भारत संदेश

झूंसी। पांच जनवरी को महान आध्यात्मिक विभूति और हयोगी कथासूत्र नामक सद्रंग के रचयिता क्रियायोग गुरु श्री परमहंस योगानन्द जी की वर्षगांठ है। विश्व विख्यात आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ योगी परमहंस योगानन्द जी के आविर्भाव के अवसर पर क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान के संस्थापक एवं अध्यक्ष गुरुजी स्वामी श्री योगी सत्यम जी के निर्देश में सामूहिक ध्यान एवं दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। इस अवसर पर सभी को एकसूत्र में बांधने और सत्य-अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया इस अवसर पर स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि क्रियायोग ध्यान के प्रति उत्तरोत्तर भक्ति का विकास ही परमहंस योगानंद जी के जन्मदिवस को मनाने का सच्चा तरीका है। वस्तुवकता में न जन्म होता है न ही मृत्यु। सन् 1920 में बोस्टन के प्राचीन एवं प्रचलित शहर के यूनिटैरियन चर्च के द्वारा द्वितीय धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें योगानन्द जी को धर्म, आध्यात्म एवं विज्ञान के ऊपर अपने विचार को व्यक्त करने के लिये आमंत्रित किया गया। सन् 1920 से 1952 तक परमहंस योगानन्द ने अमेरिका के साथ-साथ अन्य पश्चिमी राष्ट्रों में क्रियायोग का प्रचार-प्रसार किया। योगानन्द जी, जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु में भी क्रियायोग के अद्भूत प्रभाव को दिखा कर भारतीय संस्कृति को मानव सभ्यता में उच्चतम स्थान पर स्थापित किया परमहंस योगानन्द जी ने लॉस एंजेलिस, कॉलिफोर्निया (अमेरिका) में 7 मार्च, 1952 को भारतीय राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान के निमित्त आयोजित



दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते स्वामी श्री योगी सत्यम व उपरिस्थित समस्त साधक

भोज के अवसर पर अपना भाषण समाप्त करने के उपरान्त द्धमहासमाधिद्वय में प्रवेश किया। महासमाधि के 20 दिवद के पश्चात परमहंस योगानन्द के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। 27 मार्च को उनका शारीरिक रूप वैसे ही था, जैसे 7 मार्च को था। इससे यह सिद्ध होता है कि क्रियायोग के प्रभाव से पूरी शरीर निर्विकार हो जाती है। महासमाधि के

टीक पूर्व अपने सम्बोधन में परमहंस योगानन्द जी ने घोषणा कि हे भारत मैं वही आ रहा हूँ। परमहंस योगानंद जी ने अपने संदेश में कहा कि सभी मानव को शाकाहारी होना चाहिये। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महान पैमाने के रूप संबोधित करते हुए एसपी को उनके मार्ग का अनुसरण करने को कहा और पूरब और पश्चिम के विकसित ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिये।

माघ मेले के पहले स्नान को लेकर तैयारी लगभग पूरी, पहला स्नान आज

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। त्रिवेणी संगम की रती पर लगने वाला माघ मेला इस बार खास होने वाला है। योगी सरकार ने माघ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अधिकारियों ने दिन रात एक कर दिया है। मेले की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, तंबुओं की नगरी में साधु सतों का आमन भी हो चुका है। आज यानी 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की औपचारिक तौर पर शुरुआत भी हो जाएगी। 43 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में साधु सतों और कल्पवासियों के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को छः सेक्टर में बांटा गया है। गंगा की बीच धारा में श्रद्धालुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए पांच पांटेन पुल बनाए गए हैं। कल्पवासियों के ठहरने के लिए जहां टेंट में जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहीं अरैल क्षेत्र में इस बार हाईटेक टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। टेंट सिटी में लक्जरी होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इन सबके के बीच इस बार के माघ मेले में धर्म और अध्यात्म की कुछ खास तस्वीरें मेले की ओर भी आकर्षक बनाएंगी। मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर में एलईडी स्क्रीन के जरिए माघ मेले के पौराणिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। एलईडी स्क्रीन के जरिए माघ मेले के साथ ही कल्पवास के महत्व की

पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालु संगम में आज लगाएंगे दुबकी



महिमा का बखान भी साधु संत करते हुए नजर आएंगे। तंबुओं के शहर को करीब 700 हेक्टेयर में बसाया गया है। नागवासुकी मॉडर से लेकर नैनी के अरैल क्षेत्र तक मेले का विस्तार किया गया है। मेले में चर्कड प्लेट के जरिए डेढ़ सौ किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। डेढ़ लाख एलईडी बल्ब से पूरा मेला रात में दूधिया रोशनी से जगमगा रहा है। शास्त्री ब्रिज पर लगाई गई फसाड लाइट रात में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खास बात यह है कि मेले को ओडीएफ फ्री बनाने के लिए भी जरूरी तैयारियां की गई हैं। मेला क्षेत्र में स्वच्छता का खास इंतजाम किया गया है। बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई है। कोविड संभावित खतरों को देखते हुए मेला क्षेत्र में चिकित्सकीय व्यवस्था भी की गई है। मेला क्षेत्र में अस्थायी तौर पर हॉस्पिटल का निर्माण किया

गया है। अस्थायी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और प्रशिक्षित नर्स के स्टॉफ को तैनात किया गया है। साथ ही जरूरी दवाओं का भी इंतजाम किया गया है। माघ मेले में सुरक्षा को लेकर भी बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 13 पुलिस थानों के साथ ही 36 पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया है। इन पुलिस थानों और चौकियों में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। मेले में करीब छः हजार पुलिसकर्मियों तैनात किए गए हैं। सिविल पुलिस के अलावा मेले में सीआरपीएफ, आरएफ और एटीएस के कमांडो की तैनाती भी की जाएगी। इसके साथ साथ आईबी और एलआईए की टीमें भी मेला क्षेत्र में भ्रमण पर रहेंगी। मेले की निगरानी सीसीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी की जाएगी। घाटों पर जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। सादे

वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को भी स्नान घाट पर तैनात किया जाएगा। मेले में तैनात किए गए सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। श्रद्धालुओं से बातचीत में विनम्रता का पाठ पढ़ाया गया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से पुलिस को मित्र की भूमिका रहने के लिए बकायदा प्रशिक्षित किया गया है। तीर्थराज प्रयागराज देश के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। यहां पर हर साल जनवरी मास में माघ मेला लगता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है। माघ मेले की शुरुआत के पीछे कई कथाएं कही जाती हैं, हिंदू पुराणों के अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने प्रयागराज को तीर्थ राज अथवा तीर्थस्थलों का राजा कहा था। इन्होंने गंगा, यमुना और अहश्य सरस्वती के संगम तट पर प्राकृत यज्ञ संपन्न किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार, देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था। अमृत के कलश को बचाने के लिए इंद्रदेव चारों तरफ भागे थे, जिससे अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिर गई थीं। फिर अमृत कलश को विष्णु जी को दिया गया। तब से लेकर आजतक इन चारों जगहों पर स्नान करने का महत्व बहुत अधिक और विशेष है। इसी के चलते हर साल त्रिवेणी संगम पर माघ मेले का आयोजन होता है और देश दुनियां से लोग आस्था की पुष्प दुबकी लगाने के लिए आते हैं।

मऊआइमा थाने के बगल में खडी बाइक दिनदहाड़े चोरी

एटीएम चोर की फोटो वायरल होने के बाद भी चोर को नहीं पकड़ सकी पुलिस मऊआइमा। मऊआइमा पुलिस का तिनक भी खोफ बदमाशों को नहीं रह गया है। थाने से मात्र चन्द्र फरलौंग दूरी पर स्थित एक दुकान के सामने खडी बाइक अज्ञात चोर उठा दिए। भुक्तभोगी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र में चोरों और बदमाशों का दबदबा बदस्तूर जारी है। विगत दिनों एटीएम की मशीन तोड़ रहे चोर की फोटो वायरल होने के बाद भी पुलिस आज तक उक्त चोर को नहीं पकड़ सकी। जिसका परिणाम यह हुआ कि थाने के चन्द्र फरलौंग दूरी पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने अशोक कुमार विश्वकर्मा पुत्र सत्यनारायण ग्राम चंघईपुर थाना मान्धाता प्रतापगढ़ निवासी एक मोबाइल की दुकान खोले हैं। अशोक कुमार विश्वकर्मा अपनी बाइक दुकान के सामने खडी करके दुकान पर बैठ कर गड़कों को मोबाइल देखाने लगे इसी बीच चोरों ने दिनदहाड़े बाइक उडा दी। अशोक कुमार ने मऊआइमा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। बताते हैं कि वहां लगे सीसी कैमरे में चोर की फोटो आवश्यक रूप से आयी होगी परन्तु पुलिस को सीसी कैमरे की फुटेज निकालने की फुरसत नहीं है।

चोरी के माल व नकदी समेत दो शातिर गिरफ्तार

नैनी। थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी के सामान विक्री के 19000 रुपये नकद, 03 बीम लोहे के गाडर 3174 किलोग्राम व घटना में प्रयुक्त डीसीथम बरामद किया गया किया गया। औद्योगिक क्षेत्र। नैनी औद्योगिक क्षेत्र एसओ संजीव कुमार चौबे के नेतृत्व में उपनिरीक्षक चन्द्रपाल सिंह व उपनिरीक्षक अतुल कुमार मिश्र चौकी प्रभारी यूनाइटेड की टीम ने 02 शातिर चोरों राम बाबू पुत्र बरसाती विन्ड निवासी चौमु थाना बारा जनपद प्रयागराज व राहुल पुत्र मोहनलाल निवासी काशीराम कालोनी जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी के सामान विक्री के 19 हजार रुपये नकद 03 बीम लोहे का गाडर व घटना में प्रयुक्त डीसीथम किया है।

हर जनपद में एक बालमित्र थाना होना चाहिए : निर्मला सिंह पटेल

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। बाल आयोग की सदस्य निर्मला सिंह पटेल ने गुरुवार को प्रयागराज जनपद के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर बाल अधिकारों की जांच की इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए बच्चों को शिक्षित करने का निर्देश दिया है बाल आयोग की सदस्य निर्मला सिंह पटेल ने सर्वप्रथम सरोजिनी नायडू चिकित्सालय का निरीक्षण किया निरीक्षण में एनआरसी तो सही पाया गया परंतु पीकू बार्ड में काफी गंदगी देखी साथ ही बाहरी लोगों का आना जाना बिना मास्क के प्रवेश करना इन बातों को लेकर सदस्य ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा बिना मास्क के कोई भी अंदर प्रवेश ना करें उन्होंने कहा कि बच्चों के माता-पिता के अलावा बाहरी कोई भी व्यक्ति अंदर ना आए इस बात का ध्यान चिकित्सालय के जिम्मेदार रखें। इसके पश्चात सदस्य बाल आयोग निर्मला सिंह पटेल ने बालगृह का निरीक्षण करते हुए कहा बच्चों को गोद लेने का जो प्राधान्य है उसमें थोड़ी सरलता बरतनी चाहिए जो बच्चों को 5 साल की आयु में गोद दिया जाता है वह 5 वर्ष को घटाकर 3 माह होना चाहिए क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे को संपूर्ण जानकारी हो जाती है और वह कही भी जाता है तो इस बात से कुठित रहता है कि यह मेरे असली मां बाप नहीं है पता नहीं मेरे मां बाप कौन हैं क्यों अनाथालय छोड़ गए वही यदि 3 माह के बच्चे को गोद दिया जाए तो बच्चे को यह जानकारी नहीं होगी कि यह मेरे असली मां-बाप है या नहीं है या

सदस्य बाल आयोग निर्मला सिंह पटेल ने प्रयागराज का किया दौरा



बाल आयोग की सदस्य निर्मला सिंह पटेल व उपस्थित जागृति संस्थान के अध्यक्ष

में कहीं बाहर से आया हूँ उसके लिए वही असली मां-बाप वही उसका परिवार होगा जो बच्चे के भविष्य को सुनिश्चित करेगी इसके बच्चे के दिमाग में किसी प्रकार की कुंठ नहीं रहेगी और वह अपने उसी परिवार से संपूर्ण जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करेगा। सदस्य बाल आयोग ने कहा कि हर जनपद में कम से कम एक बालमित्र थाना होना ही चाहिए जिससे बाल अपराध में कमीयां आ सकती हैं उन्होंने कहा कि साथ ही बच्चों के मन में जो पुलिस का डर बैठा रहता है वह भी कम होगा।

मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों कल्पवासियों, साधु-महात्माओं को न होने पाये किसी भी प्रकार की असुविधा

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। मंत्री नगर विकास शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त स्त्रोत विभाग, उ0प्र0 जी ए0के0 शर्मा गुरुवार को मेला प्राधिकरण स्थित आईसीसीसी सभागार में पौष पूर्णिमा सहित अन्य स्नान पर्वों हेतु की गयी तैयारियों के सम्बंध में बैठक करते हुए उन्होंने अधिकारियों को माघ मेले को सकुशल, सुरक्षित एवं स्वच्छ ढंग से कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों, कल्पवासियों, साधु-महात्माओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाये। मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप माघ मेले को सकुशल, सुरक्षित एवं स्वच्छ ढंग से सम्पन्न करावें। उन्होंने माघ मेला क्षेत्र में साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था निरंतर बनाये रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहे, जिससे कि स्नानार्थियों को स्नान करने में कोई असुविधा न होने पाये। उन्होंने गहरें पानी में बैरिकेटिंग लगाये जाने के साथ-साथ गोताखोरों एवं जल पुलिस की भी पर्याप्त मात्रा में तैनाती सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा है। मंत्री जी ने बैठक में पूरे मेला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में साइनेज लगावाये जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों को मेला में की गयी व्यवस्थाओं के सम्बंध में सही ढंग से जानकारी हो सके। उन्होंने मेला क्षेत्र में एलईडी के माध्यम से मेले के बारे में, स्वच्छता के बारे में तथा सरकार की योजनाओं के बारे में निरंतर जानकारी दिए जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा है। मंत्री जी ने ठण्ड के हट्टिगपूर पूरे मेला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाये जाने तथा श्रद्धालुओं के लिए बनाये गये पण्डालों में पुआल बिछाये जाने की व्यवस्था के साथ-साथ प्रकाश, पानी की भी व्यवस्था समुचित रूप से किए जाने के लिए कहा है। मंत्री जी ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा की चुस्न-दुरूस्त व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेले में काफी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, इसके हट्टिगपूर उसी के अनुरूप सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था बनाये रखी जाये। मंत्री जी ने पाण्डू न पुलों एवं नावों का नियमित रूप से अनुश्रवण करने रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने पूरा मेला क्षेत्र में 24 घण्टे निर्वाह रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण रूप से बनाये रखने के लिए कहा है। मेला क्षेत्र में बनाये गये शौचालयों की नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मंत्री जी ने संगम क्षेत्र में प्लोटिंग नाव से संगम क्षेत्र में निरंतर जल की सफाई करते रहने के लिए

पूरे मेला क्षेत्र में साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था बनाये रखने के लिए निर्देश, माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा की चाक-चैबंद व्यवस्था बनाये रखने के लिए निर्देश

माघ मेला 2023 को महाकुम्भ-2025 के रिहसल के रूप में ले : मा0 मंत्री, नगर विकास



कहा है। उन्होंने कहा कि जिससे कि श्रद्धालुओं के द्वारा जो फूल-माला चढ़ाया जाये, उसकी सफाई निरंतर रूप से होती रहे। उन्होंने कहा कि माघ मेला 2023 को महाकुम्भ-2025 के रिहसल के रूप में ले। बैठक के उपरान्त मंत्री जी ने मेला क्षेत्र एवं स्नान घाटों का निरीक्षण भी किया तथा वहां पर की गयी तैयारियों का जायजा लिया। संगम क्षेत्र पहुंचकर वांच टॉवर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं के लिए बनाये गये चेंजिंग रूम को भी देखा। घाटों पर निरंतर साफ-सफाई की व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्नान घाटों सहित पूरे मेला क्षेत्र में की गयी साफ-सफाई की व्यवस्था पर अति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसको आगे भी इसी तरह से बनाये रखने के निर्देश दिए। मंत्री जी वहां पर सफाई कर्मी सुरेश कुमार, दीन दयाल तथा राजा से बातचीत की तथा सफाई कर्मियों के कार्यों की प्रशंसा की। मंत्री जी ने वीआईपी घाट का निरीक्षण किया तथा बोट से संगम पहुंचकर मां त्रिवेणी की पूजा-अर्चना की तथा माघ मेले के सकुशल सम्पन्न होने की कामना की। इस अवसर पर मण्डलालय विजय विद्यास पंत, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, मेलाधिकारी अरविंद सिंह चौहान, नगर आयुक्त चन्द्र मोहन गर्ग सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों उपस्थित रहे।

बाइक चोर को पुलिस ने दबोचा

लालगंज, प्रतापगढ़। लालगंज पुलिस ने नंबर प्लेट बदलकर चोरी की बाइक के साथ एक चोर को धर दबोचा है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। लालगंज कोतवाल कमलेश कुमार पाल के निर्देश पर उपनिरीक्षक अनिस कुमार यादव ने हमराहियों के साथ गुरुवार की सुबह चेकिंग लगा रखी थी। इस बीच नया पुरवा गौखाड़ी निवासी बाइक सवार शिवराम यादव पुत्र स्वामीनाथ पुलिस को देखकर भागे लगा। पुलिस ने आरोपी को दौड़ाकर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास बरामद बाइक में नंबर प्लेट बदली देख कागजात मांगा तो वह तो वह नहीं दिखा सका। मामले में दरोगा अनिस यादव की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व जालीसाजी का केस दर्ज किया है।

निर्माणधीन परियोजनाओं के कार्यों को तेजी से पूर्ण कराएं: डीएम

डीएम ने शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की किया समीक्षा

अखंड भारत संदेश
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने विकास भवन के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले 37 बिन्दुओं के विकास कार्यक्रमों एवं 50 लाख रूप से अधिक की लागत के कार्यों की समीक्षा की एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 जीएम शुक्ला, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र, जिला अर्थ एवं संस्थाधिकारी राजेश सिंह, जिला

पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना से काम करते हुये विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाये, विकास कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ सुनिश्चित हो। सम्बन्धित विभाग के अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों का स्वयं भी समय-समय पर अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें और विकास कार्यों को नियत समय सीमा में

गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में समय से बैठकर जनसुनवाई करें, जो भी फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आये उनकी समस्याओं को गम्भीरता से सुने और यथाशीघ्र गुणवत्तायुक्त निस्तारण कराये, किसी भी फरियादी को निराश न लायें, छोटे-छोटे प्रकरणों का निस्तारण जल्द कराये, जनसुनवाई के उपरान्त ही क्षेत्र भ्रमण में जायें।

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को

सभी अधिकारीगण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त निस्तारण कराये, फर्जी निस्तारण कदापि न करें। इसी तरह से मत्स्य सम्पदा योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, सिंचाई विभाग, नि-शुल्क बोरिंग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गयी।

यातायात के नियमों का पालन कर बचाएं जिन्दगी: जिलाधिकारी डीएम ने सड़क सुरक्षा माह-2023 का किया शुभारम्भ



सड़क सुरक्षा सप्ताह का फीता काटकर शुभारंभ करते डीएम।

अखंड भारत संदेश
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने निरीक्षण भवन लोक निर्माण प्रतापगढ़ में सड़क

सुरक्षा माह-2023 का फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यदि यातायात के नियमों का पालन करे तो सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। राजमार्गों पर सर्वाधिक दुर्घटनायें तेज गति के कारण होती हैं इसलिये वाहन धीरे चलायें और सुरक्षित घर पहुंचें।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो वह वहां पर किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि यदि वह नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे सजा भी मिलेगी, ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग नियमों का पालन करेंगे और जागरूक होंगे तो दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, जागरूकता ही सड़क सुरक्षा की अहम कड़ी है। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनसामान्य को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलायी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सतपाल अतिल ने कहा कि ड्राइविंग या वाहन का उपयोग करते समय प्रत्येक व्यक्ति को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिये और लोगों में

यातायात के प्रति जागरूकता होना अति आवश्यक है। हर एक नागरिक तक ट्रैफिक और सुरक्षित यातायात का सन्देश पहुंचेगा तो सुरक्षित सफर का मकसद पूरा होगा। इस दौरान अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग डा0के0 अहिरवार ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह 05 जनवरी 2023 से 04 फरवरी 2023 तक जनपद में चलेगा जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त एआरटीओ दिलीप कुमार गुप्ता ने सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी दी। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से यातायात जागरूकता वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता वाहन लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 जी0एम0 शुक्ला सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

नशा मुक्ति के लिये साकेत महाविद्यालय की छात्राओं ने बनाई मानव श्रृंखला

रैली निकालकर व नुककड़ सभा कर दिया नशा के विरुद्ध संदेश

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। नशा मुक्ति को लेकर आज गुरुवार को साकेत गर्ल्स पीजी कालेज की छात्राओं ने साकेत महाविद्यालय से अम्बेडकर चैराहे तक रैली निकाली तथा कम्पनी गार्डन के सामने से लेकर अम्बेडकर चैराहे तक मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति का नारा बुलंद किया। इसके अलावा साकेत महाविद्यालय की छात्राओं ने नुककड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया। मानव श्रृंखला में छात्राएं हाथ में तखियां लिये हुए थीं, जिनमें नशा के विरोध में नारे लिखे हुए थे।



मानव श्रृंखला का निरीक्षण करतीं सीडीओ ईशा प्रिया।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित मन चेतना दिवस के आयोजन के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया रहीं।

इस अवसर पर सीडीओ ने छात्राओं के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि समाज में नशा के प्रति जागरूकता पैदा करने का छात्राओं

ने अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने छात्राओं से बात कर उनका मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग ने किया था। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 वीरेंद्र मोहन शुक्ला, डिप्टी सीएमओ, साकेत गर्ल्स महाविद्यालय के प्रबंधक अरविन्द श्रीवास्तव, एनएसएस के तीनों इकाइयों के प्रभारी अनीता पाण्डेय, अजन्त अली अंसारी, डा0 सरिता सिंह के अलावा सभी शिक्षिकाओं तथा साकेत महाविद्यालय की 500 से अधिक छात्राओं ने इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया।

सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

अखंड भारत संदेश

पट्टी, प्रतापगढ़। दस दिन पहले सड़क हादसे में शिकार हुए बुजुर्ग की इलाज के 10 दिन बाद मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के महोखरी वाद का रहने वाला बिरजू प्रजापति (70) पुत्र गवादीन दस दिन पहले उड़ैयाडीह बाजार गया हुआ था कि जैसे ही वह पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया जिससे वह गंभीर रूप से जखमी हो गया। मौजूद लोगों ने उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर दशा को देखते हुए जिला मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ के लिए रेफर कर दिया वहां पर भी डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज में एडमिट कराया। बुधवार को परिजन उसे अस्पताल से घर लेकर आए। बीती रात बिरजू की मौत हो गई जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बिरजू घर पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था वह पांच भाइयों मुनेश्वर तुलसीराम सुरेंद्र महेंद्र में दूसरे नंबर का भाई था इलाज के दौरान सभी परिजन उसके पास ही थे। डॉक्टरों की अनुमति से घर लाया गया था, लेकिन रात में उसने दम तोड़ दिया। उसके बेटे रामचंद्र का हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है।

प्रेम प्रसंग के चलते दो वर्ष पूर्व हुआ था कोर्ट मैरिज

अखंड भारत संदेश

जेठवारा, प्रतापगढ़। जेठवारा थाना क्षेत्र के सासपुर निवासी अजय कुमार सरोज पुत्र स्व0 महारानी दीन सरोज अपने ही पड़ोस के अयोध्या प्रसाद सरोज की पुत्री अंजू देवी से दो वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज किया था। घर परिवार वालों की रजा मंदा न होने के कारण अजय और अंजू दोनों एक-दूसरे के साथ किसी शहर में रह रहे थे। दो वर्ष बीत जाने के कुछ दिनों बाद अंजू की मां ने फोन करके कहा कि बेटी अब आप दोनों घर वापस आ जाओ अब कोई कुछ नहीं बोलेगा और मेरी भी तबियत ठीक नहीं रहती एक बार इसी

बैंक जाने का बहाना बताकर लापता हुई प्रेमिका

बहाने आकर देख जाओ। अजय और अंजू दोनों एक साथ गांव आकर अजय के घर रहने लगे। अंजू का अपने मायके वालों के यहां आना-जाना शुरू हो गया। जनवरी माह के दो दिन पूर्व अंजू ने अजय और अजय की मां को डेरवा बैंक जाने के बहाने बताकर घर से कुछ कपड़े लेकर मायके जा कर मायके वालों के साथ जाने की बात कहकर चली गई। दो चार घंटे बीत जाने के बाद जब वह

घर वापस नहीं आई तो अजय ने अंजू देवी को ढूंढना शुरू किया डेरवा बैंक और नाते रिश्तेदारी ढूंढते हुए शाम हो गई। जब वह कहीं नहीं मिली तो अगले दिन जेठवारा थाने पर अंजू देवी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अजय जब अंजू के मायके वालों के घर पूछताछ करने गया तो अजय को मिले अंजू के कुछ कपड़े और मायके वालों से धमकियां। मायके वालों ने कहा कि रिपोर्ट तो दर्ज करा दिये हो और आगे से कुछ ऐसा मत करना नहीं तो तुम्हें उल्टा केस में फसा कर मार दूंगा कोई पता नहीं पाएगा। अब अजय और अजय के परिवार वालों पर जान माल का खतरा बना हुआ है।

पुलिस की नाक के नीचे दिनदहाड़े काट ले गए सरकारी पेड़, बड़ौदा यूपी बैंक, यूको बैंक व चौकी के बीच की है घटना

पुलिस को नहीं हुई खबर या फिर मौन

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। गुरुवार को पुलिस चौकी व बड़ौदा यूपी बैंक के साथ यूको बैंक के बीच में स्थित सरकारी पेड़ को कुछ दबंग दिनदहाड़े काटकर उठा ले गए। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं हो सकी या फिर मामले में उसकी मौन स्वीकृति को माना जाए। मामला कुछ ही हो फिलहाल चौकी से दस कदम की दूरी पर हुई चोरी की घटना की चर्चा जोरों पर है।



पुलिस चौकी के बगल काटा गया पेड़।

स्थानीय कोतवाली क्षेत्र स्थिति रानीगंज कैथौला पुलिस चौकी व बड़ौदा यूपी बैंक के साथ ही सामने यूको बैंक भी स्थित है उसके बीच स्थित सरकारी महुआ के पेड़ को दोपहर में कुछ दबंग काटकर उठा ले गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि बैंक व चौकी के बीच की दूरी लगभग 10 मीटर ही होगी, फिर भी पुलिस को जानकारी का न होना एक चिंताजनक बात है। उससे भी अधिक मजे की बात तो यह है कि जब लोगों द्वारा जानकारी दी गई तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई का न होना अजय भी

सरकारी पेड़ काटने का मामला नहीं हुआ शांत हो गई दूसरी घटना

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। अभी उधरनपुर में पुलिस की मौजूदगी में आधा दर्जन काटे गए सरकारी शीशम के पेड़ों का मामला शांत नहीं हुआ की पुलिस चौकी के पास स्थित महुआ के सरकारी पेड़ को दिनदहाड़े दबंग काटकर उठा ले गए और पुलिस को खबर तक नहीं हुई। जब हुई भी तो जांच का हो गया मामला।

अधिक चिंताजनक है। इसे आखिर क्या माना जाए? जब पुलिस चौकी के बगल सरकारी संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की बात तो दूर की है। इस संबंध में चौकी ईंचार्ज

ने घटना की जानकारी से इंकार किया है वहीं वन क्षेत्राधिकारी ने बताया की एक जनप्रतिनिधि ने पेड़ को काटवाया है उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रतापगढ़ का न्यूनतम तापमान पहुंचा पांच डिग्री सेल्सियस

गलन से घरों में दुबके रहे लोग, नगर पालिका ने बढ़ाए अलाव स्थल



चौराहे पर नगर पालिका का जलता अलाव।

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। ठंड का ऐसा कहर जिसका लोगों का अनुमान नहीं था, लोग गुरुवार को घरों में दुबके रहे। केवल आग के सामने बैठकर या रजाई में दुबके रहकर लोग अपने को सामान्य बना रहे थे। प्रतापगढ़ का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री रिकार्ड किया गया। दिन भर धूप नहीं निकली। कुछ पलों के लिये अपराह्न में हल्की धूप निकली लेकिन धूप का कोई असर ठंड व गलन पर नहीं पड़ा। नगर पालिका ने शहर में अलाव स्थल की संख्या बढ़ा दी है। अभी तक शहर में 20 स्थानों

पर अलाव जल रहे थे। अब इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। नगर पालिका के तीनों रैन बसेरों में रोज गरीब व निराश्रित आ रहे हैं।

नगर पालिका के सफाई निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अचलपुर आश्रित केन्द्र पर 15, हादीहाल के रैन बसेरा में 15 तथा रोडवेज के सचल रैन में नौ निराश्रित बीती रात रुके थे। मौसम विभाग ने गलन बढ़ने की चेतावनी पहले ही दी थी। आज न्यूनतम पांच डिग्री व अधिकतम 10 डिग्री रिकार्ड किया गया। इस भीषण ठंड में इंटर कालेज में छात्र-

सरकारी अलाव की व्यवस्था नदारद

अखंड भारत संदेश

परियावां, प्रतापगढ़। इन दिनों कड़ाके की ठण्ड को देखते हुये लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। कुन्डा तहसील के अंतर्गत गांव कस्बों व बाजारों में कहीं भी सरकारी अलाव की व्यवस्था अभी तक तहसील शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। बीते चार-पांच दिनों से कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो गया है ठंडी हवा व कोहरा के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्षेत्र के प्रमुख बाजार आलापुर, नवाबगंज, परियावां, अंसारगंज, लवाना कुसुवापुर में दुकानदार लोग किसी तरह लकड़ी की व्यवस्था करके आग जलाकर खुद को व राहगीरों को राहत दे रहे हैं। जब कि सरकारी फण्ड में पैसा होते हुए भी तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक अलाव नहीं जला सका। स्थानीय व्यापारियों ने जिलाधिकारी से प्रमुख बाजारों में ठंडक को देखते हुई अलाव की व्यवस्था कराने के लिए इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।

छात्राओं की संख्या बहुत कम हो गई है। लोगों का कहना है कि

अब इंटर तक के स्कूल बंद हो जाने चाहिये। मौसम विभाग की मानें

तो यह स्थिति चार-पांच दिनों तक ऐसे ही बनी रहने की संभावना है।

अवैध शस्त्र व क्रेटा गाड़ी के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। जिले के थाना मान्धाता से व030नि0 भ्रगुनाथ मिश्रा व 30नि0 ब्रम्हदेव यादव, 30नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र मान्धाता के वैशपुर पुल के पास से एक चार पहिया वाहन क्रेटा नं0 यूपी 72 7333 सहित दो व्यक्ति मौ0

जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मान्धाता पर क्रमशः मु0अ0सं0 06/2023 धारा 3/25 आर्म एक्ट बनाम गुफरान व मु0अ0सं0 07/2023 धारा 3/25 आर्म एक्ट बनाम अखरार का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथा चार पहिया वाहन क्रेटा को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मान्धाता पर क्रमशः मु0अ0सं0 06/2023 धारा 3/25 आर्म एक्ट बनाम गुफरान व मु0अ0सं0 07/2023 धारा 3/25 आर्म एक्ट बनाम अखरार का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथा चार पहिया वाहन क्रेटा को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर आक्रोशित वकीलों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। एसडीएम के तबादले की जिद पर अड़े अधिवक्ताओं ने गुरुवार को तहसील परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने एसडीएम की कार्यशैली के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार भी किया। सुबह वकील तहसील स्थित पार्क में एकत्रित हुए और आमसभा कर एसडीएम सौम्य मिश्र के तहसील से तबादले की मांग उठाते हुए डीएम के नाम प्रस्ताव पारित किया।

इसके बाद संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश की अगुवाई में वकीलों ने तहसील परिसर में एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कैम्पस में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता एसडीएम कोर्ट के सामने एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ घंटों नारेबाजी की। सभा की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश ने कहा कि मौजूदा एसडीएम कोर्ट से लेकर चेंबर तक अधिवक्ताओं तथा तहसील में आने वाले फरियादियों से आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र ने कहा कि तहसील में शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर भी जनता और आमसभा कर एसडीएम सौम्य मिश्र के तहसील से तबादले की मांग उठाते हुए डीएम के नाम प्रस्ताव पारित किया।

तहसील परिसर में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, एसडीएम कोर्ट का हुआ बहिष्कार



तहसील परिसर में नारेबाजी करते लालगंज के अधिवक्ता।

एसडीएम की हठवादिता से तहसील में कामकाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। संचालन महामंत्री षष्ठ तिवारी ने किया। पूर्व अध्यक्ष टीपी यादव, शिवकान्त उपाध्याय, राजेन्द्र मिश्र, विकास मिश्र, दिनेश सिंह, कमलेश तिवारी, कालिका प्रसाद पाण्डेय, वीरेंद्र सिंह ने भी एसडीएम की कार्यशैली को आम जनभावना के विपरीत ठहराया। वकीलों ने चेतावनी दी है कि एसडीएम का तबादला न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर घनश्याम मिश्र, संदीप सिंह, शैलेन्द्र सिंह, संतोष पाण्डेय, विपिन शुक्ल, आशीष तिवारी, विनय शुक्ल, संजय सिंह, शिव प्रसाद यादव, राहुल मिश्र, विनोद मिश्र, पंकज मिश्र, सिंटू मिश्र, केवी सिंह, उदयराज पाल, राजेश सरोज, प्रभात श्रीवास्तव, मनोज शुक्ला, संजय द्विवेदी, प्रवीण यादव, सुमित

त्रिपाठी, प्रमोद सिंह, सुजीत त्रिपाठी, शैलेन्द्र मिश्र आदि अधिवक्ता रहे।

प्राइवेट टेलीकाम कंपनी का टावर में लगी आग, हड़कंप

लालगंज, प्रतापगढ़। कोतवाली के रानीगंज कैथौला स्थित एक प्राइवेट टेलीकाम कंपनी के टावर होने के कारण वापस लौट आ गई। आग की चोट में आने से पावर प्लॉट व बैट्री जलकर स्वाहा हो गई। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन मामला शार्ट सर्किट का होने के कारण वापस लौट आ गई। कंपनी के टेक्नीशियन राकेश कुमार ने बताया कि घटना उपकरणों को बदलकर शीघ्र नेटवर्क बहाल किया जाएगा।

कौशाम्बी संदेश

खबर संक्षेप

चेकिंग के दौरान कार्यवाही

कौशाम्बी। जनपद में चलाये जा रहे यातायात से सम्बन्धित अभियान के क्रम में जनपद स्तर पर विभिन्न थानों व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग की गई एवं चेकिंग के दौरान दो पहिया चार पहिया वाहनों को चेक किया गया जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 139 वाहनों का ई-चालान किया गया तथा 02 वाहनों से 1000 रुपए सम्मान शुल्क वसूला गया।

06 अभियुक्त गिरफ्तार

कौशाम्बी। जनपद में अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साधारण मारपीट व शांति भंग करने के आरोप में थाना मंझनपुर से एक थाना करारी से एक थाना महेंदगढ से एक थाना कौशाम्बी से दो थाना सैनी से एक कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

कौशाम्बी। थाना महेंदगढ पुलिस बल द्वारा थाना पश्चिम शरीरा से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त उदय सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी कुम्हियावा थाना महेंदगढ को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।

बिदांव गौशाला का निरीक्षण कर संबन्धित अधिकारियों को डीएम ने दिये दिशा-निर्देश

डीएम ने कहा के गौशाला के बाउंड्री निर्माण कार्य में अवरोध डालने वालों पर थानेदार दर्ज करें मुकदमा

अखंड भारत संदेश

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ गुरुवार को गौशाला बिदांव का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान गौशाला की टूटे हुई तर फेसिंग का अवलोकन करते हुए सहायक अभियंता यूपी सिडको को तार फेसिंग का कार्य पिलर सहित मजबूती से एक सप्ताह के अन्दर कराने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी को राय वित्त के तहत धनराशि प्राप्त हो जाने पर गुणवत्तापूर्ण बाउंड्रीवाल का निर्माण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने थानाध्यक्ष, कौशाम्बी से कहा कि गौशाला के बाउंड्री का कार्य शासकीय कार्य है, यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम प्रधान को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अवरोध उत्पन्न न किया जाय। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु



गौ संरक्षण केन्द्र का निरीक्षण करते डीएम

चिकित्साधिकारी को गौशाला में तार फेसिंग का कार्य पूर्ण हो जाने पर गोवंशों को संरक्षित करने के निर्देश देते हुए कहा कि गौशाला में भूसा-चारा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही गोवंशों को टण्ड से बचाव के लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि केयर टेकर रात्रि में गौशाला में अवश्य उपस्थित रहें जिला

पंचायत राज अधिकारी बालगोविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि बिदांव गौशाला की देह-खाल में शिथिलता बरतने के कारण ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज एक्ट-95(अ) के तहत नोटिस जारी की गई है इस अवसर पर उप जिलाधिकारी प्रखर उतम, क्षेत्राधिकारी योगेन्द्र कृष्ण नारायण एवं खण्ड विकास अधिकारी, कौशाम्बी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

भरवारी की बेटी अनुषा की जापान में ब्रेन हैमरेज से हुई मौत

अखंड भारत संदेश

भरवारी कौशाम्बी। जिले के भरवारी की बेटी अनुषा की जापान में ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई, अनुषा ने अभी कुछ दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया था, अनुषा को शादी को अभी तीन साल ही बीते है, अनुषा की मौत की सूचना जैसे ही उसके घर वालों को मिली तो घर पर कोहराम मच गया, परिजनो ने अपने रिश्तेदारों को अनुषा की मौत की सूचना दी, परिजन अब अनुषा के शव के आने की राह देख रहे है है। भरवारी कस्बे के मेहता रोड निवासी राधा किशन केसरवानी की पुत्री अनुषा को शादी तीन साल पूर्व प्रयागराज जनपद के सुलेम सराय निवासी मनीष केसरवानी के साथ हुए थी, मनीष जापान में इंजीनियर के पद पर तैनात है, शादी के बाद से दोनों पति पत्नी जापान में ही रहा करते थे। बुधवार को अनुषा को ब्रेन हैमरेज हो गया, इसके पहले अनुषा ने 18दिन पूर्व एक बेटे को जन्म दिया था, बच्चा सकुशल एवम स्वस्थ है, परंतु बच्चे की मां अनुषा को कल ब्रेन हैमरेज हो गया था जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहा गुरुवार को उसकी मौत हो गई। अनुषा की मौत की खबर मिलते ही घर परिवार वालों में कोहराम मच गया, परिजनो का रो रोकर बुरा हाल

18 दिन पूर्व बेटे को दिया था जन्म तीन वर्ष पूर्व हुई थी शादी



मुतका अनुषा की फाइल फोटो

हाल है, वही मोहल्ले में गम का माहौल है। अनुषा के इंजीनियर पति मनीष मूल रूप से प्रयागराज जनपद के सुलेम सराय के रहने वाले है, अनुषा की मौत के बाद सबसे बड़ी विडंबना नवजात शिशु को परवरिश की हो गई है, जापान में ऐसा कोई नहीं जो उस मासूम को संभाल सके जिसके चलते मासूम बच्चा अस्पताल के कस्टडी में ही रहेगा।

गंगा नदी के टीले काटकर धारा बदलने वाले माफियाओं पर कब दर्ज होगा मुकदमा

अखंड भारत संदेश

कोखराज कौशाम्बी। गंगा नदी की धारा को काटकर उसकी धारा बदलने का प्रयास राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदारों द्वारा किया गया है जिसकी शिकायत के बाद लेखपालों के द्वारा जांच करायी गयी जो सत्य पाया गया लेकिन अब उपजिलाधिकारी को माफियाओं ने गुमराह करने का रास्ता खोज कर लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाने का खेल शुरू कर दिया है यदि गंगा नदी के टीले को काटा गया है तो राष्ट्रीय राज मार्ग के ठेकेदार के खिलाफ अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया जबकि कटान से कई गांव में बाढ़ का संकट दिखाई पड़ने लगा है गंगा नदी की कटान को माफियाओं से मोटी रकम लेकर लेखपाल ने चोरी से कटवा दिया ग्रामीणों ने बताया कि यह टीला ग्राम सभा व बंजर भूमि की जमीन है फिर भी अभी तक माफिया व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही नहीं हो सकी जिसका खाभियाजा आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रहा है गंगा नदी के टीले के कटान से उत्पन्न हो रहे गंभीर संकट से ग्रामीणों को कैसे बचाया



एसडीएम को गलत रिपोर्ट लगा कर गुमराह करने का लेखपाल द्वारा किया जा रहा प्रयास

मौके से जाँच हुई तो माफियाओं को जेल जाना तय

जापान। सिराथु तहसील क्षेत्र के कोखराज थाना अंतर्गत गंगा नदी के किनारे कई गांव के पस नियम विरुद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदारों द्वारा गंगा नदी के किनारे मिट्टी व कंकरीत का ऊंचा टीला को ठेकेदारों के द्वारा महीनों से खनन किया जा रहा है जिससे गंगा नदी की धारा का बहाव बदल गया है और यह गंभीर संकेत के परिणाम है गंगा की धारा को बदलने में

पंचायत की रकम के गबन के दोषियों की नहीं हुई गिरफ्तारी

कौशाम्बी। ग्राम पंचायतों में विकास कराए जाने के नाम पर सरकारी रकम में धांधली हेरा फेरी और गबन करने के दोषियों के नामों का जांच के बाद खुलासा होने के बाद पुलिस अभिलेखों में मुकदमा दर्ज कराया गया लेकिन सरकारी रकम के गबन के आरोपियों की गिरफ्तारी कई महीने बीत जाने के बाद पुलिस नहीं कर सकी है जिससे थाना पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गया है सिराथु तहसील क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में 50 लाख रुपए से अधिक की रकम गबन किए जाने के मामले में पंचायत सचिव अर्चना सरोज और कई ग्राम प्रधानों पर जिला अधिकारी के निर्देश पर कोखराज थाने में कई महीने पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था गबन के आरोपों सरकारी कर्मियों और ग्राम प्रधानों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद एक बार तो तत्कालीन कोखराज थानेदार ने गिरफ्तारी के लिए तेजी दिखाई लेकिन उसके बाद कोखराज थानेदार को सांप सूँघ गया। आखिर 50 लाख रुपए से अधिक सरकारी रकम के गबन के आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना पुलिस लापरवाही क्यों बरत रही है जबकि खुलेआम गबन के आरोपी घूम रहे हैं। गबन के आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी न किए जाने से कोखराज थाना पुलिस की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए गबन के आरोपी पंचायत सचिव अर्चना सरोज सहित दोषी ग्राम प्रधानों की गिरफ्तारी कराए जाने की मांग डीएम एस्प्ली से की है।

न्यूज झरोखा

अड्डवा मार्केट को बचाने के लिए हंडिया में बने पुल की तर्ज पर पुल बनाने के प्रयास शुरू

अड्डवा कौशाम्बी। अड्डवा नगर के मार्केट को बचाने के व्यापारियों दुकानदारों का प्रयास नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के अधिकारियों ठेकेदार ने शुरू कर दिया है उन्होंने सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि हंडिया की तर्ज पर अड्डवा में भी सिंगल पिलर एलिवेटेड फ्लाई ओवर पुल बनाया जाए प्रस्ताव की स्वीकृत के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही शुरू हो गयी है हाईवे चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने गुरुवार को अड्डवा कस्बे के शांति मैरिज हॉल में आवश्यक बैठक बुलाई जिसमें पीडी ने नगर वारिस्यों को पूर्ण आश्वासन दिया है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के वचनों का पालन किया जायेगा। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि अड्डवा नगर की मार्केट को बचाने के लिए हंडिया में बने पुल की तर्ज पर ही अड्डवा में सिंगल पिलर एलिवेटेड फ्लाई ओवर बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार तक पहुंचाया जाएगा सिंगल पिलर एलिवेटेड फ्लाई ओवर प्रस्ताव सरकार तक भेजने के लिए पीडी ने अड्डवा नगर वारिस्यों से एक सप्ताह की मोहलत मांगी है बैठक में प्रमुख रूप से कौशाम्बी सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र त्रिपाठी, प्रशांत केसरी, नामित सभासद चंद पाल सिंह, सौरभ केसरवानी, व्यापार मंडल अध्यक्ष रमेशचंद्र नेता जी, समाजसेवी पंडित जी बीज वाले, मुन्ना जहाजी, राजू अग्रहरि, आदित्य केसरवानी संजय केसरवानी, शिकंदर लहरी, अमृत लाल केसरवानी धीरू केसरवानी, विपिन मोहनलाल ज्ञानचंद मैर्य, गुलाब चंद कुशवाहा, रमेश चंद गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।



जाम खत्म करने का विकल्प होगा ऊपरगामी या अंडरग्राउंड पुल

ऑटो वालों की गुडई बनी जाम का कारण तैनात पुलिस बनी रहती है मुकदमा

भरवारी कौशाम्बी। नगर पालिका परिषद भरवारी के रेलवे कांसिग पर आए दिन भयंकर जाम लगने से जहा लोग काफी देर देर तक परेशान रहते हैं वही रेलवे कांसिग के ठीक बगल में ऑटो वा इरिक्सा का भी जाम बढ़ाने में अहम रोल रहता है ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी भी जाम देखकर अनजान बने रहते है बता दे कि भरवारी रेलवे कांसिग पर जाम का मामला नया तो नहीं है परंतु उसका हल भी न तो रेलवे न ही लोक निर्माण विभाग ही निकालने में सफल होना नजर आ रहा है जैके महसूस हो रहा है कि इन दोनों विभाग को यात्रियों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। यह समस्या भरवारी वालों के लिए नापूर बनी चली जा रही है उसके अलावा इस जाम में सबसे बड़ी समस्या रेलवे फाटक पर ऑटो वाले वा इरिक्सा चालक भी जाम में सड़क करके जाम में चार चांद लगाकर समस्या बढ़ाने का काम करते है ऐसा नहीं है कि मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी को जाम की जानकारी नहीं होती लेकिन चाय की चुस्की लेते हुए पुलिस कर्मी गलत तरीके से खड़े ऑटो वाले ई रिक्शा वालों के क्रिया कलापो को आँखों से देखते रहते हैं इसी बीच कही फाटक खुल गया तो पहले निकलने के चक्कर में और जाम लग जाता है। जाम का नजारा तो तब देखा जा सकता है जब स्कूल की छुट्टी हो जाए और बच्चों की गाड़ी वा बस घंटे जाम में फसी रह जाए ऐसे में मासूम बच्चों के उपर क्या बीती होगी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते होगे जब तक भरवारी रेलवे फाटक पर ऊपरगामी या अंडरग्राउंड पुल जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक भरवारी रेलवे फाटक के विकाराल जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी इसलिए रेलवे और लोक निर्माण विभाग को ऊपरगामी और अंडरग्राउंड पुल बनाने पर प्रयास करना होगा।



80 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार, भेजे गए न्यायालय

अड्डवा कौशाम्बी। बुधवार की शाम अवैध शराब विनिर्माण की सूचना पर आवकारी निरीक्षक सिराथु अरुण कुमार ने मय हमराहियों सैनी क्षेत्र के गांवों में छापा मारकर 2 अभियुक्तों को सम्बंधित धाराओं में गिरफ्तार किया है



मुखबिर की सूचना पर आवकारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी कोतवाली के ग्राम सभा लोहदा में धनपरियता उर्फ गीता और ग्राम चकमहजुवा काजीपुर से कैलाश चन्द्र को दूधी भुङ्गी के साथ 80 लीटर महुआ शराब व 10 इन्नों से 800 किलो लहन रह किया इस दौरान आवकारी पुलिस के जवानों ने अर्धनिर्मित शराब लहन को मौके पर ही नष्ट करवा दिया दोनों अवैध शराब अभियुक्तों को हिरासत में लेकर सम्बंधित धाराओं में कार्रवाई की है छापामार कार्रवाई में आशीष दुबे राजेश शुक्ल पुलकिंत शुक्ला मौजूद रहे।

60 लीटर शराब के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार

कौशाम्बी जनपद में अवैध शराब के निर्माण एवं वसकरी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में विभिन्न थानों द्वारा कुल छः अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 130 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सम्बन्धित थानो पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया जानकारी के मुताबिक थाना सदीपन घाट पुलिस बल द्वारा अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र राम सुमेर निवासी शोभना बरोड़ी थाना सदीपन घाट को गिरफ्तार कर कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब व शैलेन्द्र कुमार पुत्र जय करन निवासी थिठकैना बाग थाना सदीपन घाट को गिरफ्तार कर कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब बरामद होने पर अभियुक्त चालान न्यायालय कर दिया है। इसी प्रकार थाना कड़धाम पुलिस बल द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र श्याम लाल निवासी रुकुनपुर लेहदरी थाना कड़धाम को गिरफ्तार कर कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब व कल्लू पासी पुत्र रतान निवासी बारा हवेली खालसा थाना कड़धाम को गिरफ्तार कर कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब बरामद होने पर अभियुक्तों का चालान न्यायालय कर दिया है।

योगी सरकार के निर्देश के बाद भी गड्डा मुक्त नहीं हुई सड़कें

दानपुर कौशाम्बी। योगी सरकार ने सड़कों को गड्डा मुक्त करने का निर्देश दिया था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड ने सड़कों को अभिलेखों में गड्डा मुक्त कर के सरकारी खजाने से बजट निकाल लिया है और सरकार को गड्डा मुक्त सड़क किए जाने की झुठी रिपोर्ट भेज दी है मंझनपुर तहसील के टेवा से धाता मार्ग गड्डा मुक्त नहीं हो सका है टेवा से धाता मार्ग के ग्राम चक्र नगर के आसपास सड़क पर बड़े-बड़े गड्डे होने से कई हादसे हो चुके हैं सड़क के मुख्य मार्ग का पुल भी टूट गया है वह भी हादसे का कारण बन रहा है पुल टूट जाने और सड़क में बड़े-बड़े गड्डे होने से आए दिन बाइक सवार सड़क में अधिकारिय हो रहे हैं कई बार ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत कराए जाने की अधिकारियों से मांग की लेकिन कागज में सड़क मरम्मत होने के चलते सड़क पर लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड फिर से निर्माण नहीं करा पा रहा है जिसकी परेशानी ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है।



हरी झंडी दिखा कर दो प्रचार वाहनों को किया गया रवाना



कौशाम्बी। सड़क सुरक्षा माह का कार्यक्रम एआरटीओ कार्यालय कौशाम्बी में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेन्द्र सोनकर द्वारा हरी झंडी दिखा कर दो प्रचार वाहनों को रवाना किया गया एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम सयकथ संगीयोग कार्यालय में संपन्न कराया इस दौरान सड़क सुरक्षा से संबन्धित लोगों को जानकारी दी गई है।

ठंड से कांप रहे भूखे प्यासे बृद्ध को आश्रम में दिया स्थान

संपत्ति छीनकर नालायक बेटों ने वृद्ध अब्बू को धक्के मार कर घर से भगाया



वृद्ध को आश्रम ले जाते संचालक आलोक राय

अखंड भारत संदेश

कौशाम्बी। धन की लोलुपता और आधुनिकता की दौड़ में अंधे हो चुके 3 जवान बेटों ने वृद्ध अब्बू को धक्के मार कर घर से भगा दिया है जिससे वृद्ध अब्बू दाने-दाने को मोहताज हो गया है और लोगों से मांग कर पेट भर रहा है कानपुर के विवेक टॉकीज के पास रहने वाले वृद्ध यूसुफ खान नगर पीलीवा परिषद भरवारी के बाबा टीवीएस चौराहे पर कई दिनों से खुले आसमान के नीचे पड़े थे ठंड अधिक बढ़ गई जिससे वृद्ध खूबसे आसमान के नीचे कांप रहे था मामले की जानकारी लोगों ने वृद्ध आश्रम संचालक आलोक राय को दिया वृद्ध यूसुफ के खुले आसमान के नीचे पड़े होने की जानकारी मिलते ही आश्रम संचालक आलोक राय बाबा टीवीएस चौराहा भरवारी पहुंचे और बुजुर्ग यूसुफ से बात कर उसकी समस्या से अवगत हुए बातचीत के दौरान बुजुर्ग ने बताया कि वह कानपुर के विवेक टाकीज के पास रहने वाले है शाहिद साजिद अच्छे बाबू उसके 3 जवान बेटे हैं लेकिन बेटों ने काफी दिन पहले धक्का मार कर मारपीट कर घर से बाहर कर दिया है और हमारे द्वारा अर्जित की गई समस्त संपत्ति छीन ली है कानपुर का वृद्ध ट्रेन के जरिए भरवारी आ गया है और यही पर खुले आसमान के नीचे वह किसी तरह अपने जिंदगी के दिन गुजार रहा है।

उसे घर में नहीं रहने देते हैं बृद्ध का कहना है कि बेटे उसके साथ मारपीट करते हैं जिससे वृद्ध दर दर की ठोकर खा रहा है लेकिन बृद्धजन आश्रम संचालक आलोक राय ने उसे आश्रम में स्थान देकर उसे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई है जिसने भी वृद्ध की यह दशा देखी है उसने निकम्मे बेटों की कड़े शब्दों में निंदा की है।

कपकपाती ठंड से ठिठुर रहे लोगों को बचाने के लिए हर चौराहे पर जले अलाव

सरकार के आदेश के बाद भीषण ठंड से बचाव के लिए कोखराज ग्राम प्रधान ने अपनी ग्राम पंचायत में जगह जगह जलाए अलाव

कोखराज कौशाम्बी। यूपी सरकार के आदेश के बाद ग्राम प्रधान व लेखपालों को जिम्मेदारी के साथ सभी चौराहों व ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थान पर अलाव लगाने को कहा गया था जिसमें ग्राम कोखराज प्रधान व लेखपाल लोकनाथ पांडेय के द्वारा अलाव लगाया जा रहा है इसी तरह ग्राम सभा कोखराज के सभी बारह मजरो में प्रत्येक चौराहे पर लकड़ी वितरण कर अलाव जलाया जा रहा है जिससे ग्रामीणों को इस शीतलहर से राहत मिल सके ग्राम प्रधान व लेखपाल ने कहा कि जब तक कपकपाती ठंड व शीतलहर जारी रहेगी तब तक ग्रामीणों को अलाव जला कर बचाव होता रहेगा ग्राम महमद पुर, टिकरा, आलीगंज, लाट पुर, गरीब का पुरवा, आदि ग्रामीणों ने प्रधान व लेखपाल के इस कार्य की सराहना की है।



प्रधान द्वारा जलवाया गया अलाव

कौशाम्बी जिले में नहीं जले अलाव ठंड से ठिठुर रहे लोग....

तिल्लापुर मोड़ कौशाम्बी। दिनोंदिन ठंड बढ़ रही है तापमान का पारा गिर रहा है सुबह से दोपहर तक आसमान में बादल छाप रहते हैं आधी रात के बाद से सुबह तक कुहरा भी छाया रहता है हवाएं सर्द हो चुकी है शीतलहर चल रही है गुरुवार के पूरे दिन आसमान में कोहरा छाया रहा आसमान से ओस की बूंदें पुरे दिन टपकती रही ठंड से लोग घरों से नहीं निकल सके शासन ने जगह-जगह गांव बाजार कस्बे सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए जाने का निर्देश प्रशासन को दिया शासन के निर्देश पर अलाव जलाने का निर्देश तहसील प्रशासन और ग्राम पंचायतों को भेज दिए गए लेकिन अलाव जलाए जाने का निर्देश केवल अभिलेखों तक सीमित रह गया है चाली तहसील क्षेत्र मनीरी बाजार, महमूदपुर, चाणव, भरवारी, चरवा, मोहम्मदपुर, चलीली, रगरगां, आदि नेवावा ब्लॉक के क्षेत्र तिल्लापुर मोड़, इमली गांव, दुगापुर, सराय अकिल, बेगीना कटवा, नेवावा, आदि सिराथु तहसील क्षेत्र के टेंद्री मोड़, अंदावा, सहजानपुर, सुजानपुर, हमरौली, कल्यानपुर, पलटी पुर, गुलामी पुर, केसरिया, नंदबई, हिसामपुर, परसखी, आदि इलाके के तमाम ग्राम पंचायतों में कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकारी व्यवस्था से अलाव नहीं जलाए जा सके हैं अलाव की लकड़ियां खरीदी ही नहीं गई है फर्जी बिल वाउचर लगाकर अलाव की लकड़ियों का भुगतान कराया जा रहा है संपन्न लोग तो अन्य साधनों से ठंड में राहत पा रहे हैं लेकिन गरीब कमजोर मजलूम ठंड में कांप रहे हैं संसाधन ना होने से गरीबों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है लेकिन सार्वजनिक स्थलों से लेकर गांव क्षेत्र के चौराहों अस्पतालों बस टैम्पो अड़ड़े रेलवे स्टेशन गरीब बस्तियों में अभी तक अलाव नहीं जलाए गए हैं गांव क्षेत्र के लोगों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सार्वजनिक स्थल पर तत्काल अलाव जलाए जाने की मांग की है।



नगर पंचायत अड्डवा का अलाव

फटाफट खबरें

यातायात माह को जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरीझण्डी



अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश खरे, सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर ने सीओ यातायात राजकमल एवं एआरटीओ विनय शुक्ला ने नये बस स्टैण्ड बेडीपुलिया से सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ किया।

गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ करते हुए कहा कि यातायात नियमों का सभी लोग पालन करें। उन्होंने यातायात नियमों के पालन की सभी लोगों को शपथ दिलाई। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने यातायात प्रचार-प्रसार वाहन को हरीझण्डी दिखाकर रवाना किया।

प्रचार-प्रसार वाहन कर्वी शहर एवं सीतापुर क्षेत्र में जाकर लोगों से यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने का आवाहन किया। ये सड़क सुरक्षा माह पांच जनवरी से चार फरवरी तक मनाया जायेगा। इस मौके पर परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता की बाबत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये। इस मौके पर पीटीओ संतोष कुमार तिवारी, यातायात प्रभारी मनोज कुमार, टीएसआई योगेश कुमार यादव व परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

तनाव से दूर रहने को दिनचर्या में बदलाव जरूरी: सुशील द्विवेदी



अखंड भारत संदेश

पहाड़ी/चित्रकूट। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानसिक स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी ने कहा कि तनाव से दूर रहने को दिनचर्या में बदलाव जरूरी है। सवेरे-शाम टहलना एवं सवेरे व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है।

गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का शुभारम्भ बतौर मुख्य अतिथि पहाड़ी ब्लाक प्रमुख सुशील द्विवेदी व सीएमओ डॉं भूपेश द्विवेदी ने फीता काटते हुए मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाया। ब्लाक प्रमुख सुशील द्विवेदी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की स्वास्थ्य सेवाएँ पहुंचाने में अहम भूमिका है। मोदी-योगी सरकार की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया गया है। सीएमओ डॉं भूपेश द्विवेदी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को खुशहाली के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। प्रभारी डॉं उदयप्रताप सिंह ने अतिथियों एवं दूर-दराज से आये मरीजों के स्वास्थ्य का हालचाल जानते हुए आभार जताया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों ने मरीजों की निःशुल्क जांच की। संचालन बीपीएम राधेकृष्ण ने किया। इस मौके पर बालविकास परियोजना अधिकारी महेन्द्र सिंह, डॉं सुधीर सिंह, डॉं महेन्द्र सिंह, डॉं दीपाशु, डॉं आकांक्षा सिंह, अशोक सिंह, सीएचएस शुभम गुप्ता, आशुतोष सिंह, आशा एवं संपनी, आंगनवाडी कार्यकर्त्री आदि मौजूद रहे। सैकड़ों मरीजों ने शिविर में पहुंचकर लाभ उठाया।

दो चोरों को दबोचकर कार-रुपये किये

बरामद



अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। कोतवाली कर्वी के अमानपुर स्थित हुडई शोरूम में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दो चोरों को 43 हजार रुपये व कार समेत दबोचा है।

गुरुवार को पुलिस अधीक्षक श्रीमती चन्द्रा शुक्ला ने बताया कि 31 दिसम्बर की रात अमानपुर स्थित हुडई शोरूम से चोर चार लाख 56 हजार रुपये, आधारकार्ड व अन्य कागजात चुरा ले गये थे। घटना की रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर चैकी प्रभारी सीतापुर प्रवीण सिंह को खुलासे के निर्देश दिये थे। चैकी प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर मो इस्माइल पुत्र मो इमत्याज निवासी ऊटारखाना पुरानी बाजार, राजू द्विवेदी पुत्र लालमन द्विवेदी निवासी सिरखनी थाना विश्वविद्यालय जिला रीवा मप्र हालमुकाम पसियौडा भरतपुरी के कब्जे से यूपी 96एम- 3983 कार एवं चोरों के 43 हजार रुपये, आधारकार्ड आदि सामान बरामद किया।

पुंछताछ में चोरों ने बताया कि दोनों अमानपुर स्थित हुडई शोरूम में डेकोरेशन का काम करते थे। काउंटर में रुपये देखकर उनकी नियत डोल गई। उन्होंने काउंटर से तक्ररीबन साढ़े चार लाख रुपये चोरी कर आपस में बांट लिए थे। लगातार खर्च करने के बाद उनके पास 43 हजार रुपये बचे हैं। पुलिस ने चोरों से सामान व रुपये व कार बरामद कर जेल भेजा है। टीम में चैकी प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह, सिपाही अनुज यादव, अभिषेक यादव, कुलदीप द्विवेदी, सोनू पटेल, गोलू भार्गव आदि शामिल रहे।

जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन संपन्न

अखंड भारत संदेश

उन्नाव। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री विकास प्राथमिकता कार्यक्रम के 37 बिन्दुओं की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री विकास प्राथमिकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण, सेतुओं का निर्माण, गड्ढामुक्ति व सड़क चेड़ीकरण, सोलर पम्प स्थापना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सिंचाई एवं सिल्ट सफाई, निराश्रित गौवंश, चिकित्सकों की उपलब्धता, आयुष्मान कार्डों की प्रगति, ऑपरेशन कायाकल्प, री-बोर/हैण्डपम्प मरम्मत की प्रगति, नगर विकास, शहरी आवास योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना, जल निगम ग्रामीण, सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन पोषण

अभियान, दुग्ध विकास, विद्युत व्यवस्था सहित समस्त 37 बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की गयी।

बैठक में डीएम ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थी परक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराएँ। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त अन्त्येदय राशन कार्ड धारकों को अविलम्ब गोलडन कार्ड उपलब्ध करा दिये जाएँ तथा क्लेमों का समय से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। यह भी कहा कि डीपीआरओ से समन्वय स्थापित कर आयुष्मान भारत योजना के समस्त पात्र लाभार्थियों



की सूची ग्राम पंचायत सचिवालयों में चम्पा करवा दी जाए। प्रत्येक सीएचसी/पीएचसी पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि सर्दी के दृष्टिगत निराश्रित गौवंश को शत प्रतिशत

संरक्षित किया जाए, तथा गौशालाओं का पेन्डिंग भुगतान अविलम्ब कराया जाए। अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को सख्त निर्देश दिये कि जनपद के जो गाँव सड़क कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं। उन गाँवों को जल्द से जल्द

जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता दर्शन तथा जन चैपालों में सर्वाधिक शिकायतें सिंचाई से सम्बन्धित मिल रही हैं। कई लोगों की शिकायत है कि माइनर्स में टेल

तक पानी न पहुँचने की वजह से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी माइनर्स का निरीक्षण करते हुए किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्या को तत्काल हल किया जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि पेंशन योजनाओं के समस्त लाभार्थियों को समय से पेंशन उपलब्ध करायी जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 सत्य प्रकाश, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय, जिला कृषि अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 अनिल पाण्डेय, उपायुक्त उद्योग करुणा राय, जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनु यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ0 नीलम सिंह सहित अन्य योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

भेदभाव पूर्ण ढंग से सुन्दरीकरण में सांसद दौषी करार

जातिवादी मानसिकता के चलते सांसद से लोगों का दूटा भरोसा



अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। आईना टूट जाने का गम नहीं, अफसोस तो भरोसा टूटने का है- कुछ इसी तरह से सांसद आरके सिंह पटेल पर लोगों का भरोसा था, लेकिन जातिवादी मानसिकता के चलते सांसद आरके सिंह पटेल ने जिला मुख्यालय के सुन्दरीकरण में ट्राफिक चैराहा में सुलभ शौचालय में बुलडोजर न चलवाकर लोगों के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है।

गुरुवार को जिला मुख्यालय के ट्राफिक चैराहे में जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द ने नये सुलभ शौचालय एवं स्नानागार का भूमि पूजन कर कहा कि शौचालय के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाये। एसडीएम

सदर राजबहादुर व नगर पालिका परिषद के ईओ रामअचल कुरील को निर्देश दिये कि अतिक्रमण में जो दुकानें आ रही हैं, उन्हें हटाया जाये। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे को तत्काल नोटिस देकर हटाने का कार्य किया जाये। इस सन्दर्भ में ट्राफिक चैराहे में तक्ररीबन 40 साल से बनी दुकानें जयप्रकाश शुक्ला, विजय प्रकाश शुक्ला व रमेश पाण्डेय को बिना किसी नोटिस के बेदखल कर दिया गया है। मजे की बात ये है कि यहीं पर बने सुलभ शौचालय पर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं समझी गई। इसके पीछे सांसद आरके सिंह पटेल की जातिवादी मानसिकता को लोगों ने दौषी करार दिया है। लोगों ने कहा कि आईना टूट जाने का गम नहीं था,



अफसोस तो भरोसा टूटने का है- लोगों ने कहा कि सांसद आरके सिंह पटेल से ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि वे ऐसी जातिवादी मानसिकता के तहत कार्य करेंगे। लोगों ने कहा कि बस ये अति हो गई, अब वे कभी सांसद को वोट नहीं करेंगे। ट्राफिक चैराहे में जिस ढंग से सुन्दरीकरण को बुलडोजर चलाया गया है, उसमें ज्यादातर लोग सांसद आरके सिंह पटेल को ही दौषी करार दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि सांसद चाहते तो पहले सुलभ शौचालय की इमारत गिराई जाती, बाद में अन्य किसी के प्रतिष्ठान ढहाये जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सांसद आरके सिंह पटेल की मनमानी के चलते जिले का प्रशासन अराजकता पर उतारू है। लोगों ने संकल्प लिया कि

इसका सबक आगामी चुनाव में सांसद को सिखाकर ही दम लेंगे। जिला मुख्यालय के ट्राफिक चैराहे में लोगों को अपनी दुकानें टूटने का उतना गम नहीं था, जितना कि लोगों को सांसद के भरोसा टूटने का गम रहा। लोगों ने कहा कि भेदभाव पूर्ण ढंग से जिला मुख्यालय के ट्राफिक चैराहे में सुन्दरीकरण को अभियान चलाया गया है। लोगों में इस अभियान को लेकर खासा रोष है। लोगों ने कहा कि जब तक सुलभ शौचालय नहीं तोड़ा जाता तो तब तक लोगों का गुस्सा नहीं थमेगा। इसके लिए ज्यादातर लोग सांसद आरके सिंह पटेल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता भी मौजूद रहे।

स्कूल संचालक मदमस्त: जिला प्रशासन परस्त

बेखौफी से कर रहा निर्माण कार्य, जिला प्रशासन स्कूल संचालक के आगे नतमस्तक

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जिले के बहुचर्चित स्कूल संचालक की हरकतों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। स्कूल संचालक जिला प्रशासन को ताक में रखकर मनमानी ढंग से निर्माण कार्य से बाज नहीं आ रहा है। चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता आनन्द प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि प्राधिकरण के सचिव से संस्तुति लेकर पुलिस के जरिये निर्माण कार्य रुकवाया जायेगा।

गुरुवार को भी जिले के रेलवे स्टेशन रोड के सामने गली में बिना नक्शा के बन रहे स्कूल की चार मंजिला इमारत का काम जिला प्रशासन आज तक नहीं रुकवा सका है। स्कूल संचालक जिला प्रशासन को ताक पर रखे हैं। उसे किसी का भय-डर नहीं है। बेखौफी से बिना नक्शा के निर्माण कार्य कर रहा है। दो



मंजिला इमारत के नक्शे के स्थान पर चार मंजिला इमारत बनाकर जिलाधिकारी के आवास की सुरक्षा की गोपनीयता भंग करने का इरादा पाले है। इस इमारत को बुलडोजर से ढहाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इमारत सुरक्षा मानकों को दर-किनार कर

बनवाई जा रही है। इसके बनने से प्रशासन की गोपनीयता भंग होने के आसार हैं। प्राधिकरण के अवर अभियंता आनन्द प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि स्कूल संचालक किसी सूत्र से उनकी बात नहीं मान रहा है। उन्होंने प्राधिकरण की सचिव वनिता श्रीवास्तव को पत्र भेजा है। जिसमें लिखा है कि स्कूल संचालक के इमारत का कार्य रोकने को पुलिस को पत्र भेजा जाये। उन्होंने बताया कि स्कूल संचालक के राजा घाट किनारे बनी गौशाला में भी बिना नक्शे के हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की नोटिस भेजी गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक को कारण बताओ नोटिस भेजकर इमारत गिराने के संकेत दिये हैं। इस सबके बाद भी स्कूल संचालक इस कदर मतवाला है कि उसे योगी सरकार के किसी

भी डीएम-एसपी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की कोई परवाह नहीं है। स्कूल संचालक इस कदर मदमस्त है कि उसे किसी का भी डर-भय नहीं है। वह पैसे के मद में इस कदर चूर है कि उसे शासन-प्रशासन का कोई भय नहीं है, क्योंकि उसने पिछले दिनों अपने स्कूल में एक कार्यक्रम कर सत्तापक्ष के कुछ लोगों को व जिले के अधिकारियों को बुलाकर अपनी ताकत का एहसास कराया है। इसके चलते उसकी मस्ती पर जिले का कोई भी अधिकारी अंकुश लगाने को सामने आने को तैयार नहीं है। ऐसे स्कूल संचालक को भू-माफिया घोषित कर उसकी सभी सम्पत्ति के जब्तिकरण की तत्काल कार्यवाही होने पर ही उसकी मदमस्ती में सुधार हो सकता है। ऐसे स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर तत्काल जेल की सलाखों में भेजा जाये।

न्यू इरोखा

अवैध खनन की सूचना पर उप जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल से कराई जांच



अखंड भारत संदेश

उन्नाव। तहसील सदर अंतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी सदर नूपुर गोयल द्वारा क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल से मौके की जांच कराई गई।

मौके की जांच में एक जेसीबी बिना नंबर प्लेट के ग्राम देवारा खुर्द के गाटा संख्या 2 में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के नाम दर्ज है। जिसे खनन करते पाया गया। मौके पर खनन के संबंध में कोई अनुमति न होने के कारण वहाँ मौजूद एक जेसीबी व एक डंपर को थाना गंगा घाट की सुपुर्दगी में दे दिया गया। तदोपरत प्राप्त सूचना पर खनन अधिकारी द्वारा जेसीबी को अवैध खनन के जुर्म में थाना गंगा घाट में सीज किया गया है। इस दौरान एक डंपर भी पकड़ा गया डंपर में कोई उपखनिज नहीं होने के कारण खनन की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर दबंग कर रहे हैं खेती, तालाब और परती की भूमि पर भी कर रखा है कब्जा

अखंड भारत संदेश

बागमऊ उन्नाव। तहसील क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर आंबापारा में कुछ समय पहले चक्रोड की भूमि पर प्रधान ने कब्जा कर रखा था जिसे शिकायत करने पर अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। अब इस्माइलपुर आंबापारा मजरा नयागांव में कुछ लोगों ने सरकारी और तालाब की भूमि पर कब्जा कर रखा है। खसरा नंबर 1077 1078, 1079, पर करीब ढाई बीघा भूमि पर नयागांव के प्रताप पुत्र सुल्ताना व अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। जिसकी शिकायत समाजसेवी बबलू कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है। और शिकायत तहसील बागमऊ में आ चुकी है। समाजसेवी बबलू ने पहले भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत कर भूमि कब्जा मुक्त कराई है। समाजसेवी का कहना है कि इस बार भी कड़ी कार्रवाई करते हुए दबंगों के चंचुल से भूमि कब्जा मुक्त कराई जाएगी।

139 रनों से जीतकर धाता टीम पहुंची

सेमीफाइनल

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। स्व डॉं महेन्द्र सिंह की पुण्य स्मृति में बरवारा चैलेंज कप के सुपर सिक्स के मुकाबले में सोनेपुर-धाता के बीच मैच खेला गया। सोनेपुर ने टॉस जीतकर धाता की टीम को बल्लेबाजी दी।

गुरुवार को धाता की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर के खेल में 166 रन पर आलआउट हो गई। बल्लेबाज विनय कुमार ने 33 गेंद में 76 रन बनाये। सोनेपुर के गेंदबाज सचिन ने 25 रन देकर चार विकेट लिए। लक्ष्य का पीछे करने उतरी सोनेपुर टीम मात्र 9.3 ओवर के खेल में 28 रनों पर पूरी टीम आलआउट हो गई। धाता टीम ने 139 रनों से मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। धाता के गेंदबाज रिहान ने 13 रन देकर पांच विकेट लिए। मैन आफ द मैच रहे विनय कुमार ने 33 गेंदों में 76 रन बनाये। इस मौके पर पूर्व सुबेदार संतोष सिंह, प्रधान अभिलाष सिंह, शिक्षक प्रेमचन्द्र शिवहर, संचालक जानकीशरण पाण्डेय, मीडिया प्रभारी महेन्द्र सिंह, एमएयर जयनेन्द्र सिंह, राजेश सिंह, कोषाध्यक्ष पंकज सिंह, संजय सिंह, कोटेदार मनोज कुमार, स्कोरर नीलू सिंह, विनय सिंह, अंकित सिंह, रणजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

मनचले बने हैं पीडिता की जानमाल का खतरा

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। कोतवाली कर्वी के कालपुर गांव की रेखा देवी पत्नी हरी प्रसाद ने कर्वी कोतवाल को दी तहरीर में कहा कि कुछ मनचले पीडिता व परिवार के लोगों की जानमाल का खतरा बने हैं। पीडिता ने रिपोर्ट दर्जकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। गुरुवार को पीडिता रेखा देवी ने कर्वी कोतवाल को दी तहरीर में कहा कि पड़ोसी प्यारेलाल पुत्र रामबहरी कई वर्षों से उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। लोकलाज व उसके आतंक के भय से पीडिता घर से बाहर नहीं निकल पाती है। पीडिता का जीना मुश्किल किये है। चार जनवरी को रात आठ बजे पीडिता के घर से बाहर शौचक्रिया को जाने पर बुरी नियत से पकड़ने का प्रयास किया।

विभिन्न देशों को वैक्सीन आपूर्ति करने से भारत की वैश्विक छवि हुई मजबूत : हरिवंश नारायण सिंह

राष्ट्रमंडल अर्थशास्त्री और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल हुए राज्यसभा के उपसभापति

सीएसपीओसी में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कोविडकाल में भारत के प्रयासों की दी जानकारी

कदमों का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत में



निर्मित टीकों की वैक्सीन मैत्री के रूप में दुनियाभर के विभिन्न देशों में आपूर्ति करने से भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद के उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी। दरअसल, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सीएसपीओसी में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मेलन में उपसभापति ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भारतीय संसद के उठाए गए

किया। भारतीय संसद के दोनों सदन इस अवसर पर एक साथ

करिब लाए हैं। सम्मेलन में हरिवंश ने कहा कि साइबर स्पेस इको-सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद और ऐसी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। भारत के मूल दर्शन, वसुधैव कुटुम्बकम पर प्रकाश डालते हुए हरिवंश ने कहा कि भारत निश्चित रूप से स्थायी वैश्विक शांति और साझा समृद्धि के लिए आगे बढ़ने के लिए वैश्विक समाज के साथ चलेगा। इस सम्मेलन में उपसभापति के साथ लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाना है। इस तरह का पिछला सम्मेलन जनवरी 2020 में कनाडा में आयोजित हुआ था और अगला सम्मेलन 2024 में युगांडा में प्रस्तावित है।

खड़े रहे और उन्होंने शीर्ष विधायी निकाय द्वारा महामारी के दौरान अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से संसद सदस्यों की भागीदारी और जनता से जुड़ाव में वृद्धि की है। इसके फलस्वरूप वे संसद की गतिविधियों को नागरिकों के

लिए जांच अनिवार्य कर दिया है। यानी जो भी यात्री चीन से आएंगे उन्हें 72 घंटे भीतर के निगेटिव रिपोर्ट के साथ-साथ RTPCR टेस्ट से भी गुजरना होगा। राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि चीन फिलहाल कोरोना महामारी के लिहाज से बेहद संवेदनशील देश है। चीन को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। चीन अपने फायदे के लिए महामारी को नजरअंदाज कर रहा है। बाइडन ने कहा कि चीन को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें। चीन इसे नियंत्रण में करे और विवेकपूर्ण कदम उठाए ताकि हम किसी भी संभावित वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए वह सब

सोमालिया में दो कार बम धमाकों में 19 की मौत, अल शबाब ने ली जिम्मेदारी

मोगादिशु। मध्य सोमालिया में दो कार बम विस्फोटों में 19 लोग मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी हिरन क्षेत्र के एक स्थानीय मिलिशिया कमांडर अल-शबाब ने ली है। विस्फोटकों से लदी दो कारों को हिरान के महास शहर में एक साथ विस्फोट किया गया था, जहां पिछले साल अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी समूह के खिलाफ एक बड़ा हमला किया गया था।

स्थानीय सुरक्षा अधिकारी अब्दुल्लाही अदन ने बताया कि आतंकियों ने विस्फोटकों से लदे वाहनों से महास कस्बे में हमला किया। अदन ने बताया कि आतंकियों ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। इन विस्फोटों में 19 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला आतंकवादी संगठन अल-शबाब के जिहादी लड़कों द्वारा किया है। मध्य सोमालिया के हीरान क्षेत्र में हुए धमाकों से पूरा क्षेत्र दहल

गया। दरअसल, इसी क्षेत्र में सोमालिया के सुरक्षा बलों ने

आतंकवादियों ने हारने के बाद आम नागरिकों को डराने के लिए



अल-शबाब के खिलाफ एक बड़ा हमला किया था। अल-शबाब आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़ा हुआ समूह है, जिसने कई देशों में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। महास के एक पुलिस कमांडर उस्मान नूर ने कहा कि

विस्फोट का सहारा लिया है, लेकिन यह लोगों डरा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने इस हमले में निर्दोष नागरिकों की जान ली है। घटनास्थल पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका महास में जिला प्रशासन

की इमारत के निकट एक रेस्तरां के पास हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी अदन हसन ने कहा कि मैंने महिलाओं और बच्चों सहित नौ लोगों के शव देखे, यह एक भीषण

स्थानीय सुरक्षा अधिकारी अब्दुल्लाही अदन ने बताया कि आतंकियों ने विस्फोटकों से लदे वाहनों से महास कस्बे में हमला किया। अदन ने बताया कि आतंकियों ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया।

हमला था। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने अल-शबाब के खिलाफ ऑल-आउट युद्ध की घोषणा कर दी है। बता दें कि अल-शबाब 15 सालों से सोमालियाई सरकार के खिलाफ खूनी विद्रोह छेड़ रहा है।

कोरोना से निपटने के चीन के रवैये से चिंतित हुआ अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडन ने ड्रैगन को दे डाली नसीहत

कैनबरा। चीन के कोरोना से निपटने के रवैये से डब्ल्यूएचओ समेत दुनिया के कई देश चिंतित दिख रहे हैं। चीन जिस तरह से कोरोना के आंकड़े छिपा रहा है उससे पड़ोसी देश तो सतर्क हो ही गए हैं उससे भी अधिक सतर्क अमेरिका दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने

बयान जारी कर ड्रैगन को नसीहत तक दे डाली है। बाइडन ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमें चीन के कोरोना से निपटने के इस रवैये से चिंतित हूँ। चीन मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहा है। इसलिए भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के

लिए जांच अनिवार्य कर दिया है। यानी जो भी यात्री चीन से आएंगे उन्हें 72 घंटे भीतर के निगेटिव रिपोर्ट के साथ-साथ RTPCR टेस्ट से भी गुजरना होगा। राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि चीन फिलहाल कोरोना महामारी के लिहाज से बेहद संवेदनशील देश है। चीन को पारदर्शिता बरतनी

चाहिए। चीन अपने फायदे के लिए महामारी को नजरअंदाज कर रहा है। बाइडन ने कहा कि चीन को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें। चीन इसे नियंत्रण में करे और विवेकपूर्ण कदम उठाए ताकि हम किसी भी संभावित वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए वह सब

कुछ करें जो हम कर सकते हैं। वहीं विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने संवाददाताओं से कहा कि कोविड कहीं भी फैल रहा है, लेकिन विशेष रूप से चीन जैसे घनी आबादी वाले देश में, निश्चित रूप से वैरिएंट के उभरने की पूरी आशंका है।

अमेरिका की भारतीय छात्रों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात, 1.25 लाख वीजा जारी कर तोड़े सारे रिकॉर्ड

वाशिंगटन। क्या भारत के और करीब आना चाहता है अमेरिका? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी दूतावास ने इस बार 1.25 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी कर अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा बैकलॉग जारी करने में देरी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्राइस ने स्वीकार किया कि देरी हुई है, लेकिन भारत में हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने एकल में जारी किए गए छत्र वीजा की संख्या के लिए अपना सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। वित्तीय वर्ष 2022 में हमने लगभग 1,25,000 छत्र वीजा जारी किए हैं। नेड प्राइस ने कहा कि हम निश्चित रूप से मानते हैं कि कुछ आवेदकों को अभी भी विस्तारित वीजा प्रतीक्षा समय का सामना करना पड़ सकता है और हम वीजा साक्षात्कार नियुक्ति प्रतीक्षा समय को जितनी जल्दी हो सके कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्राइस ने कहा कि अमेरिका गैर-आपराधी यात्रियों को वैध यात्रा की सुविधा देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन के लक्ष्य के लिए समय पर वीजा प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है। नेड प्राइस ने कहा कि वीजा को तेजी से संसाधित करने में अमेरिकी प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, प्राइस ने कहा कि हमने इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अमेरिकी विदेश और सेवा कर्मियों की भर्ती को दोगुना कर दिया है। वीजा प्रसंस्करण अनुमान से अधिक तेजी से ठीक हो रहा है और आने वाले वर्षों में हम पूर्व-महामारी प्रसंस्करण स्तर तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, कहा- भारत के डिजिटल इंडिया विजन को करेंगे साकार



नई दिल्ली। दुनिया की जानी-मानी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्या नडेला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से यहां मुलाकात की। नडेला ने टवीट कर कहा कि हम भारत के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने और दुनिया के लिए एक रोशनी बनने में उसकी मदद के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व में टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास पर भारत सरकार की गहरी नजर है, जो बेहद प्रेरणादायक है। हम भारत के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने और दुनिया के लिए एक रोशनी बनने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ नडेला ने आगे कहा कि भारत डिजिटल सेक्टर में बेहतर काम कर रहा है। दुनिया के किसी और देश में डिजिटल को लेकर इतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है।

अखंड भारत संदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी श्री योगी सत्यम् फॉर योग सत्संग समिति द्वारा विपिन इण्टरप्राइजेज 1/6C माधव कुंज कटरा प्रयागराज से मुद्रित एवं क्रियायोग आश्रम एण्ड अनुसंधान संस्थान झूसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रकाशित। सम्पादक स्वामी श्री योगी सत्यम् Title UPHIN 29506 ऑफिस मो.: 9565333000 Email: akhandbharatsandesh1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा।

दक्षिण कोरिया ने कहा, परमाणु हथियारों के प्रबंधन पर अमेरिका से बातचीत जारी

कीव। दक्षिण कोरिया ने दोहराया है कि उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु खतरे के बीच उसके और अमेरिका के बीच अमेरिकी परमाणु हथियारों के प्रबंधन पर दक्षिण कोरिया को शामिल किए जाने के संबंध में बातचीत चल रही है। दरअसल, उत्तर कोरिया ने नए साल के पहले दिन रविवार को एक मिसाइल का परीक्षण किया था। वहीं, उसके नेता किम जोंग उन ने अपने देश के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने और नयी व अधिक शक्तिशाली अंतरमहाद्विपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का संकल्प लिया था। दक्षिण कोरिया इसके बाद से अमेरिका की ओर से वृद्ध सुरक्षा प्रतिबद्धता चाह रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बातचीत के संबंध में दक्षिण कोरिया का बयान दोनों देशों के रक्षा प्रमुखों के बीच नवंबर में हुए समझौते पर आधारित है,

जिसके तहत संयुक्त अभ्यास करने और सुक येओल ने सोमवार को एक समाचार सूचनाएं साझा करने, संयुक्त रूप से



योजनाएं बनाने तथा उनका क्रियाव्यवस्थापन सुनिश्चित करने में तेजी लाने पर सहमति बनी थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून

सुक येओल ने सोमवार को एक समाचार पत्र में प्रकाशित साक्षात्कार में कहा कि

दोनों देश अमेरिकी परमाणु शस्त्रों के संबंध में संयुक्त योजना एवं प्रशिक्षण की योजना बना रहे हैं और अमेरिका ने इस विचार में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि क्या दोनों देश संयुक्त परमाणु अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं तो बाइडन ने 'नहीं' में जवाब दिया। बाइडन की इस टिप्पणी से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। यूएन के प्रवक्ता किम उन हे ने मंगलवार को एक बयान जारी कर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के बयान को दोबारा दोहराया। उन्होंने कहा कि सियोल और वाशिंगटन 'उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे के जवाब में अमेरिका के परमाणु जखीरे के संबंध में सूचनाएं साझा करने, संयुक्त योजनाएं बनाने और प्रशिक्षण देने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।' इसके बाद व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर कहा

कि बाइडन और यून ने 'अपनी टीम से कई परिदृश्यों में प्रभावी समन्वय प्रतिक्रिया योजना बनाने को कहा है। इनमें उत्तर कोरिया की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का परिदृश्य भी शामिल है।' एक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अधिकारी कंप्यूटर पर आधारित अभ्यास जल्द शुरू कर सकते हैं। गौरतलब है कि यून ने समाचारपत्र 'द चोसुन इल्बो' को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, 'परमाणु हथियार अमेरिका के हैं, लेकिन योजनाएं बनाना, सूचनाएं साझा करना और अभ्यास एवं प्रशिक्षण का काम दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।' गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया के पास अपना कोई परमाणु हथियार नहीं है।

भारत में मानवरहित विमानों के कलपुर्जे बनाने के लिए जनरल एटॉमिक्स ने साझेदारी की घोषणा की

वाशिंगटन। अमेरिका की शीर्ष ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने भारत में मानवरहित विमानों के लैडिंग उपकरणों और कलपुर्जों के निर्माण के लिए देश की एक प्रमुख कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस कदम से भारत में अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण के लिए एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद जगी है। जनरल एटॉमिक्स की एक अनुषंगी, सैन डिगो स्थित जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम (जीए-एएसआई) ने कहा कि भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ 25वर्षीय साझेदारी दोनों कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण में सहायक होगी और इससे भारत में

मानवरहित विमान उद्योग को गति मिलेगी। जनरल एटॉमिक्स



ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी विवेक लाल ने कहा, 'जीए-एएसआई मानवरहित विमानों के कलपुर्जे के निर्माण की दिशा में भारत फोर्ज के साथ काम करने को लेकर उत्साहित

है।' एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्च-प्रदर्शन वाले

परीक्षण और सत्यापन तक में पूर्ण-सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी ने कहा कि एयरोस्पेस एक 'गहन प्रौद्योगिकी' क्षेत्र है, जो उत्पाद की शुद्धता, विश्वसनीयता और उसके दोषरहित होने पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, 'यह अपने आप में एक संस्कृति है, जिसमें लोगों और प्रक्रियाओं पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारी एयरोस्पेस विकास रणनीति के हिस्से के रूप में जीए-एएसआई के साथ हमारी साझेदारी जनरल एटॉमिक्स के साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की हमारी कोशिशों को आगे बढ़ाने का प्रमाण है।

नए साल में ताइवान देगा हट नागरिक को 200 डॉलर, आर्थिक लाभ बुजुर्गों के साथ भी किया जाएगा साझा



काबुल। ताइवान ने नए साल पर अपने हर नागरिक को करीब 200 डॉलर नकद (करीब 16,000 रुपये) देने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति सु ली-चैंग इसकी घोषणा करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि की जानकारी देशवासियों के साथ साझा की। सु ने संवाददाताओं से कहा, आर्थिक उपलब्धियों का लाभ युवा से लेकर बुढ़े सभी नागरिकों के साथ साझा किया जाएगा। सु ने 20 जनवरी से शुरू होने वाली साप्ताहिक की छुट्टियों का जिक्र करते हुए कहा, हम सभी नागरिकों को चंद्र नववर्ष की शुरुआत के बाद नए साल का आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसके तहत लोगों को यह राशि दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार भुगतान कैसे करेगी। 2021 में ताइवान की वृद्धि दर 6.45 फीसदी रही थी, जो 2010 की 10.25 फीसदी की वृद्धि दर के बाद सबसे ज्यादा थी।

कई धमाकों से गुंजा काबुल, लोगों में दहशत

अकाबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कई तेज धमाकों से गुंजा उठा, जिससे लोगों में दहशत है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे कई किमी दूर तक सुना जा सकता था। हालांकि, धमाकों के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। साथ ही अभी तक इसमें हताहतों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इन धमाकों को लेकर तालिबान के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले रविवार को काबुल सैन्य हवाई अड्डे पर हुए विस्फोट में कम से कम 10 लोग मारे गए थे और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी तक्रुर ने कहा कि विस्फोट में काबुल में सैन्य हवाईअड्डे के

मुख्य द्वार के करीब लोग घायल हुए हैं। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में



पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा संबंधी घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले महीने काबुल के मध्य में एक चीनी स्वामित्व वाले होटल को निशाना बनाया गया था। बता दें कि 15 अगस्त 2021 में

स्टेट की अफगान शाखा से जुड़े सशस्त्र समूहों ने जातीय हजारा, अफगान शिया, सूफियों और अन्य को निशाना बनाकर बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए अथवा घायल हुए थे।

ब्रिटिश राजघराने में मारपीट: क्वीन एलिजाबेथ के पोतों के बीच हाथापाई, प्रिंस हैरी बोले- भाई ने मुझे पटका

लंदन। प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा 'स्पेयर' में अपने निजी जीवन की चौकाने वाली घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया है, जो 10 जनवरी को प्रकाशित होने वाली है। उन्होंने अपने बड़े भाई प्रिंस विलियम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में एक ऐसा आरोप है जिससे रॉयल परिवार में उथल-पुथल मच गया है। दरअसल, प्रिंस हैरी ने अपने बड़े भाई प्रिंस विलियम पर शारिरिक हमले करने का आरोप लगाया है। इस आरोप से पता चल रहा है कि रॉयल परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। विलियम ने पहले कॉलर पकड़ा, फिर मुझे फर्श पर पटक दिया: प्रिंस हैरी



प्रिंस हैरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई प्रिंस विलियम ने आपसी बहस के दौरान मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे फर्श पर पटक दिया

जिससे मैं कुत्ते के कटोरे पर जा गिरा। इससे मेरे कपड़े फट गए और पीठ पर कई जख्म हो गए। मैं एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा,

प्रिंस हैरी की पत्नी मेघन को खतरनाक और असह्य कहा। लड़ाई तब बढ़ गई जब विलियम ने हैरी के कॉलर को पकड़ लिया। वहीं शारीरिक हमले का जिक्र करते हुए प्रिंस हैरी ने कहा कि उनकी पीठ में अभी भी वो चोट दिख रही है। हैरी ने यह भी बताया कि उन्होंने इस घटना का जिक्र अपनी पत्नी मेगन मार्केल से नहीं की लेकिन बाद में उसने मेरे बैंक पर वो चोट नोटिस किया, जिससे वह दुखी हो गई। ऑटोबायोग्राफी अगले हफ्ते दुनियाभर में पब्लिश की जाएगी।